

आचाराङ्ग-सूत्र

आचाराङ्ग-सूत्रम्

मूलपाठ-विशिष्ट पाठभेद-शब्दकोष-समन्वयम्

(प्रथमः श्रुतस्कन्धः)



जर्मनराष्ट्रनियासि-डॉक्टर-इत्युपाधिधारि-यात्तर शुद्धिंग-नामधेयेन विद्वद्देण
संशोधितं, जर्मन-देशान्तर्गत-छाइप्पिंग-नगर संस्थित-
ग्राच्यविद्या-गवेषक-समितिद्वारा रोमनलिप्या
प्रकटिभूतं च पुस्तकमनुसृत्य

मारत्यर्पान्तर्गत-

पुण्यपचन-संस्थापित

जैन साहित्य संशोधक समिति

नामकसंस्थायाः सञ्चालकेन देवनामराक्षीः प्रकटी कृतम्



प्रकाशकः—मुनि तिलकविजय, भारत जैन विद्यालय, पूना शहर.

ऐदकः—लक्ष्मण भाऊराय कोकाटे, हजुरान मेस, ३०० सदाशिव पेठ, पूना शहर.

॥ आयारंग-सुत्तं ॥

॥ 'वम्भचेराइ' नाम पठमो सुयक्खन्धो ॥

सत्य परि शा

१-१

(१) सुयं मे, आउसं, तेण मगवया एवमंकखायः—

इहमेगेसिं नो सज्जा भवइ, (२) तं-जहा: 'पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, दाहिणा-ओ वा दिसाओ...., पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ...., उत्तराओ वा दिसाओ...., उड्डाओ वा दिसाओ...., अहेदिसाओ वा...., अन्नयरीओ वा दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि'—एवमेनेसिं नो नायं भवइ: (३) 'अथिं मे आया उववाइए, नथिं मे आया उववा-५ इए १ के अहं आसी के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ।' । (४) से उज्जं पुण जाणेज्जा सह-समुइयाए पर-वागरणेण अन्नेसिं वा अन्तिए सोच्चा, सं-जहा :— 'पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि जाव अन्नयरीओ वा दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि'—एवमेगेसिं नायं भवइ :— 'अथिं मे आया उववाइए; जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणुसंचरइ, सञ्चाओ दिसाओ सञ्चाओ अणु 10 दिसाओ सोइइ' ।

(५) से आया-शाई लोगा-वाई कम्मा-वाई किरिया-वाई य ।

'करिसं च'हं कारबेसं च'हं करओ यावि समणुजे भविस्सामि'—एयावन्ती सञ्चावन्ती लोगांसि कम्म-समारम्भा परिजागियव्वा भवन्ति । (६) अपरिकाय कम्मे खलु अथं पुरिसे, जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणुसंचरइ, सञ्चाओ दिसाओ सञ्चाओ अणुदिसाओ सहेइ, 15 अणेग-ख्वाओ जोणाओ सन्धेइ, विरुव-ख्वे फासे पटिसंवेइ । (७) तथ्य खलु मगवया परिका पवेहया इमस्स चे'व जीवियस्स परिवन्दण-माणण-पूयणाए, जाइ-मरण-मोयणाए दुक्ख-पढिधाय-हेउ—एयावन्ती सञ्चावन्ती लोगांसि कम्मसमारम्भा परिजागियव्वा भवन्ति । जस्ते'ए लोगांसि कम्मसमारम्भा परिकाया भवन्ति, से हु सुणी परिकाय-कम्मे—सि बेमि ॥

१-२

(१) अहे लोए परिजुणे दुरसंबोहे अविज्ञाणए ।

जौस्स लोए पव्वहिए

साथ-नाथ्य पुढो पास आउरा परियायोन्ति ।

(२) सनित पाणा पुढो-सिया ।

लज्जमाणा पुढो पास ।

“ अणगारा मो ” सि एगे पवयमाणा ।

जमिणं विरुद्ध-रूपेहि सत्थेहि पुढविक-कम्मसमारम्भेण पुढविसत्थं समारम्भमाणे अन्ने
५व' ऐगरुवे पाणे विहिसइ—(३) तथं खलु भगवया परिज्ञा पवेहया इमस्स चैव जीवि-
स्स परिवन्दण-माणण-पूयणाए, ब्राह्म-मरण-मोयणाए दुक्ख-पदिघाय-हेउं — से सयमेव
पुढविसत्थं समारम्भइ अन्नेहि वा पुढविसत्थं समारम्भावेइ अन्ने वा पुढविसत्थं समार-
म्भन्ते समणुजाणइ; (४) तं से अदियाए, तं से अबोहीए । से तं संबुद्धमाणे आयाणीयं,
समुद्गाए — सोच्चा खलु भगवओ अणगाराणं वा अन्तिए इहमेगोसि नायं भवइ : एस खलु
१०गन्धे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरए ।

इच्छत्थं गढिए लोए ।

जमिणं विरुद्ध-रूपेहि सत्थेहि पुढविक-कम्मसमारम्भेण पुढविसत्थं समारम्भमाणे अन्ने
वणे'ग-रूपे पाणे विहिसइ—

(५) से वेमि: अप्पेगे अधमब्बे, अप्पेगे अचमच्छे, अप्पेगे पायमब्बे, अप्पेगे पायमच्छे;....
१५ गुफ्क....जंघं....जाणुं....ऊरुं....कटिं....नाभि....उयरं....पासं....पिहिं....उरं....हियं....
थं....खन्धं....बाहुं....हथं....अंगुलिं....नहं....गीवं....हृणुं....होहुं....दन्तं....जिवं....तालुं
....गलं....गण्डं....कण्णं....नासं....अच्छ....भमुहं....निलाहं....सीसं....; अप्पेगे संपमारए
अप्पेगे उद्दवए ।

(६) एथ सत्थं समारम्भमाणस्स इच्छेइ आरम्भा अपरिज्ञाया भवन्ति, एथ सत्थं
२० समारम्भमाणस्स इच्छेइ आरम्भा परिज्ञाया भवन्ति । तं परिज्ञाय मेहावी नेव सयं पुढविसत्थं
समारमेज्जा नेव'चेहि पुढविसत्थं समारम्भावेज्जा नेव'चे पुढविसत्थं समारम्भन्ते समणुजाणेज्जा ।
जस्ते'ए पुढविक-कम्म-समारम्भा परिज्ञाया भवन्ति, से हु मुणी परिज्ञाय-कम्मे — चि वेमि ॥

१-३

(१) से वेमि : से जहा वि—

अणगारे उज्जुकडे नियाग-पदिवने अमायं कुब्बमाणे वियाहिए ।

२५ (२) जाए सद्गाएँ निकखन्तो, तमेव अणुपालिया;

वियहितु विसोतियं

पणया वीरा महा-वीहि

लोगं च आणए अभिसमेचा अकुओभयं ।

(३) से वेमि:—नैव सयं लोगं अभ्माइक्सेज्जा, नेव अताणं अभ्माइक्सेज्जा । जे लोगं
४० अभ्माइक्सइ, से अताणं अभ्माइक्सइ, जे अताणं अभ्माइक्सइ, से लोगं अभ्माइक्सइ ।

(४-६) ‘लज्जमाणा....(या प० ३-१३. नदरं पुढविस्याने उदय भणनीय)....

विहेत्ता—

(७) से वेमि : सन्ति पाणा उदय-निस्तिया बीवा अणेगा ।
इह च खलु भो अणामाराणं उदयं बीवा वियाहिया ।
सत्यं चेत् अणुवीद, पास पुढो सत्यं पवेत्य :

अदु वा अद्वा'यां :

"कप्पद गे कप्पद गे पाठं",

अदु वा विमुक्षाए पुढो सत्येहि विडवन्ति । पृथ्य वि तोसि नो निकरणाए ।

(८) एथ सत्यं... (यथा २, १९-२३. नवं पुढवि स्थाने उदय मणीयं)...परिक्राय-
कम्मे—ति वेमि ॥

१-४

(१-२) से वेमि : नेव सत्यं... (यथा २, २१-२०.)... लोगं लज्जाइक्षाइ । जे
दीहलोग-सत्यस्त स्थेयत्र, से असत्यस्त स्थेयत्र; जे असत्यस्त स्थेयत्र, से दीहलोग-सत्यस्त स्थेयत्र । १०
(३) वीरोहि एवं अभिभूय दिदुं

संजप्तहि स्या जप्तहि स्या अप्तमत्तोहि :

जे पमरे मुण्डिए, से हु दण्डे पुच्छइ ;

तं परिक्राय मेहावी "इयाणि नो,

जगहं पुञ्चमकासी पमाएणं" ।

(४-५) लज्जामाणा ... (यथा २, २-१३. नवं पुढवि स्थाने अगणि मणीयं),....
विहित्त—

(६) से वेमि : सन्ति पाणा पुढवि-निस्तिया तण-निस्तिया पत्तनिस्तिया कट्ट-निस्तिया
गोमय-निस्तिया कव्यवर-निस्तिया, 'सन्ति संपाद्मा पाणा, आहचं संपयन्ति य'। अगाणि च खलु
पुढा एगे संघायमावज्जन्ति; जे तत्थं संघायमावज्जन्ति, ते तत्थपरियाविज्ञन्ति; जे सत्थं परि-२०
याविज्ञन्ति, ते तत्थं उदायन्ति ।

(७) एथ सत्यं... (यथा २, १९-२३. नवं पुढवि स्थाने अगणि मणीयं)
परिक्राय-कम्मे—ति वेमि ॥

१-५

(१) "तं नो करिस्तामि समुद्राए
मता महमं अभयं विद्वा ।

तं जे नो परए, एसोवरए, एत्योवरए एस अणगारे ति पुच्छवा । २५

(२) जे गुणे से आवहे, जे आवहे से गुणे : उडु अहं तिरियं पाईं पासमाणे रुवाइं
पासइ, मुणमाणे सदाइं मुणइ; (३) उडु अहं तिरियं पाईं पासमाणे रुवेमु मुच्छइ सदेमु यावि ।

एथ अगुचे अणाणाए । एस लोए वियाहिए

मुणो-पुणो गुणासाए वंक-समायारे पमरे गारमावसे ।

(४-५) 'लज्जामाणा.... (यथा २, २-१३. नवं पुढवि स्थाने वणस्पति मणीयं) ...विहित्त—

(६) से वेमि : इमं पि जाइ-धम्यं, एवं पि जाइ-धम्यं, इमं पि बुढ़ि-धम्यं, एवं पि बुढ़ि-धम्यं;....वित्तमन्तयं....छिकं मिलार....आहारं....अनिच्छयं....असाधयं....चयावचहयं....विपरिणाम-धम्यं ।

(७) एत्थ सत्यं....(यथा २, ११-२२. नवरं पुढ़वि स्थाने घणस्सइ भग्नीय)
६ परिक्राय-कम्मे—ति वेमि ॥

१-६

(१) से वेमि : सन्ति'मे तसा पाणा, तं-जहाः—अण्डया पोयया बराडया रसया संसेयया समुच्छिमा उविभया उववाइया ।

एस संसारे ति पबुच्चह

(२) मन्दस्स अविजागओ ।

निजशाइसा पढिलेहिता परेयं परिणिव्वाणं

सञ्चेत्ति पाणाणं, सञ्चेत्ति भूपाणं, सञ्चेत्ति जीवाणं, सञ्चेत्ति सताणं असायं अपरिणिव्वाणं ।
महबयं दुक्खं ति वेमि ”।

तसन्ति पाणा पदिसो दिसासु य ।

‘ तत्थ-सत्यं पुढो पास आउरा परियावेन्ति । (३) सन्ति पाणा पुढो-सिया ।

१५ (४) ‘ लज्जामाणा (यथा २, २-१३. नवरं पुढ़वि स्थाने तसकाय भग्नीय)
विहिसइ—

(५) से वेमि : अप्पेगे अचाए हणन्ति, अप्पेगे अजिणाए वहन्ति,...मंसाए....सोणि-याए...., एवं हिययाए पिचाए वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए विसाणाए दन्ताए दाढाए नहाए श्हारुणीए अट्टीए अठिभिजाए—अट्टाए अणटाए; अप्पेगे ‘ हिसिंसु मे ’ ति वा वहन्ति,
२० अप्पेगे ‘ हिसन्ति मे ’ ति वा वहन्ति, अप्पेगे ‘ हिसिसन्ति मे ’ ति वा वहन्ति ।

(६) एत्थ सत्यं....(यथा २, ११-२२. नवरं पुढ़वि स्थाने तसकाय भग्नीय) परिक्राय-
कम्मे—ति वेमि ॥

१-७

(१) पहु य एजस्से दुगुड्छणाए ।

आयंक दंसी ‘ अहिय ’ ति नचा ।

२५ जे अज्ञातयं जाणइ, से वहिया जाणइ; जे वहिया जाणइ, से अज्ञातयं जाणइ: एवं
तुलं अज्ञेसि ।

इद सन्ति-गया दविया नायकंखन्ति जीविउं ।

(२-३) ‘ लज्जामाणा.... (यथा २, २-१३. नवरं पुढ़वि स्थाने घाउ भग्नीय)विहिसइ—
(४) से वेमि:

सन्ति संपाइमा पाणा, आहच संपयन्ति य ।

फरितं च खलु पुढा (यथा ३, ११-२१) उदायन्ति ।

(५) एत्य सत्थं (यथा २, ११-२२ नवर्त पुढविस्याने घाउ भगवीर्य)....

परिक्राय-कम्मे—ति वेमि ॥

(६) एत्य पि जाणे उवार्द्यमाणा

वे आयारे न रमन्ति,

आरम्भमाणा विण्यं वयन्ति;

घन्दोवणीया अज्ञोववन्ना

आरम्भसर्वां पकरेन्ति संगं ।

5

से वसुमं सञ्च-समज्ञागय-पञ्जाणेण अप्याणेण अकरणिङ्गं पांच कम्मन्तं नो अन्वेषि ।

(७) तं परिक्राय मेहावी (यथा २, २०-२३ नवर्त पुढविस्याने छाजीयनिकाय 10 भगवीर्य) परिक्राय-कम्मे—ति वेमि ॥

लोग वि ज ओ

२-१

(१) जे गुणे से मूल-डाणे, जे मूल-डाणे दे गुणे ।

इति से गुणही

महया परियावेण वसे पमते,

तं-जहाः—‘माया मे, दिया मे, भाया मे, भर्णी मे, भज्ञा मे, पुचा मे, धूया मे, १५ सुष्ठा मे, सहि-सयण-संग-न्य-संसुया मे, विचित्रोवगरण-परियट्टण-भोयण’च्छायणं मे’; ‘इत्थर्थं गढिण् लोप्’ । ‘वसे पमते’

अहो य राओ परितप्यमाणे

कालाकाल-समुद्वाई संजोगही अथालोभी आलुम्मे

सहसाकरे विनिविट्ट-चिते

20

‘एत्य सत्थे पुणो-पुणो’ ।

(२) अप्यं च खलु आउ इहमेगोस्ति भाणवाणं,

तं-जहाः—सोय-परिक्रायोहि परिहायमाणोहि, चक्कु-प० प०, धाण- प० प०, रस-प० प०, फास-प० प०, अभिकन्तं च खलु यं संपेहाए—तबो से एगया मूढ-भावं लगयन्ति; जेहि वा संदिँ संवसइ, ते व णं एगया नियगा पुँडिव परियन्ति सो वा ते २५ नियगे पच्छा परिवेज्जा ।

नालं ते तव ताणाए

वा सरणा ए वा, तुम्भि तेसि नालं ताणाए वा सरणाए वा । (३) ‘से न इस्साए,

न किद्दाप, न रुईप, न विमूलाप’ इच्चेवं समुद्विष ‘अहो विहाराए’। अन्तरं च खलु इमं संपेहाए

धीरे मुहुरमवि नो पमायए;

वमोऽवधीइ जोब्बर्णं च जीविए

80

इह जे पमता,—

से हन्ता छेरा भेटा लुभिता विलुभिता उद्देवता उत्तासहता ‘अकडे करिसतामि’
ति मममाणे । जोहि वा (यथा ५, १५-१८. नवरं परिवर्यन्ति तथा परिवपज्ञा स्थाने पोसेन्ति
तथा पोसेज्ञा भग्नीये) सरणाए वा । (४) उवार्द्ध-सेसतेण वा सचिहि-सचिचबो फलइ
दहसेगिसिं माणवाणं भोयणाए । तजो से एग्या रोग-समुप्याया समुप्जन्ति; जैहि वा
(यथा ५, १५-१८. नवरं परिद्वारन्ति तथा परिद्वेज्ञा परनीये) ... सरणाए वा ।
(५) जापितु दुक्षलं परेय-सायं

अणभिकन्तं च खलु वयं संपीहाए

खणं जाणाहि पण्डिए

10 जाव सोत-परिक्षणेहि अपरिहायमाणेहि, नेत०-प० अ०, घाण-प० अ०, रस-प० अ०,
फास-प० अ०; इच्चेष्ठाहि विरुद्ध-रुद्धवेहि परिक्षणेहि अपरिहायमाणेहि । आयहुं सम्मं समग्नवासे-
ज्ञासि—ति बेमि ॥

२-२

(१) अरं जाउहे से मेहावी,

खणंसि मुके अणाणाए

पुढा वि एगे नियदृन्ति मन्दा मोहेण पाठडा:

“ अपरिगाहा भविस्त्वामो ” समुढाए लद्दे कामे’भिगाहा ।

अणाणाए मुणिणो पदिलेहन्ति; एथ मोहे मुणो मुणो

सत्रा नो हव्याए नो पाराए ।

विमुठा हु ते बणा, जे जणा पार-गमिणो ।

20 लोमं बलोभेण दुगुच्छमाणे
लद्दे कामे नो’भिगाहा ।

विणहतु लोमं निकखम्भ

एस अकम्भे जाणइ पासइ, पटिलेहाए नावकंखाइ, एस

अणगारे ति पुच्छह ।

25 (२) ‘ अहो य रायो.... (यथा ५, ११-१२) मुणो-मुणो’से आय-बले, से नाह-
बले, से भित-बले, से पेच्च-बले, से देव-बले, से राय-बले, से चोर-बले, से अशहि-बले, से
विवाह-बले, से समण-बले, (३) इच्चेष्ठाहि विरुद्ध-रुद्धवेहि कज्जोहि दण्ड-समायार्ण संरेहाए
भया कज्जद ‘ पाव-मोक्षो ’ ति मन्त्रमाणे अदु वा आतंस्तपए । तं परिक्षाय मेहावी
नेव सर्यं एष्ठाहि कज्जोहि दण्डं समारभेज्ञा, नेव-क्षं एष्ठाहि कज्जोहि दण्डं समारभेज्ञा, नेव-क्षं
30 एष्ठाहि दण्डं समारभन्तं समग्नुजाणेज्ञा । एस मग्ने आरिष्ठाहि पवेष्ट, जहेथ कुसले नोवलिष्टे-
ज्ञासि—ति बेमि ॥

२-३

(१) से असइ उच्चा-गोण, असइ नीया-गोण, नो हीण, नो अहरिते : नो
पीढ़ए । इति संखाए के गोया-वार्द, के माणा-वार्द, कंसि वा एगे गिज्जो । (२) तम्हा

परिष्ठिए नो हरिसे, नो कुन्जे

मूर्खिं जाण पडिलेह सायं

समिए एंयाणुपस्ती,

तं-जहा : अन्धरं बहिरतं सूर्यतं कुण्ठतं खुञ्जतं वटधरं सानं तं सबलतं, सह पमाएर्ण अणेग-ख्वाओ जोणीमो संधेह, विहृव-ख्वे फासे पदितंवेह। (३) से अवृज्ज्ञाणे हओवदए ५
जाई-मरणं अणुररियदृमाणे।

जीवियं पुढो चिर्यं इह मेतेसि माणवाणं स्त्रैत-वत्यु ममायामाणाणं; आरतं चिरतं माणि-
कुण्ठलं सह दिरण्णेण, इत्थियाओ परिगिज्जा तत्थेव रहा, न एव तवो वा दमो वा नियमो
वा दिससइ;

संगुणं बाले जीविड-कामे लालप्पमाणे
मूढे विष्परियासु'वेह।

10

(४) इषेमव नायकं सवन्ति जे जाणा खुप-ख्वारिणो;
जाई-मरणं परिकाय चरे संकमणे ददे।

नथिं कालस्त्वाणामो—सब्वे पाणा रिया'रुया

सुह-साया दुपस-पटिकूला

15

अणिय-वहा पिय-जीविणो जीविड-कामा। सब्वोर्धं जीवियं पियं,

(५) तं परिगिज्जा दुप्यं चटप्पयं

अभिजुङ्गियाणं संसंचियाणं

तिविदेण—जा वि से तथ यहा भवह अप्पा वा बहुगत वा, से तथ गदिण् चिह्न
भोयणाए। तओ से एगया विपरिचिंडं संमूयं महोयगरणं भवइ, तं पि से एगया दायादा किम-२०
यन्ति, अदचहारो वा से अवहरइ, रायाणो वा से विटुप्पन्ति; नस्तइ वा से, विनस्सइ वा से,
अगार-दरेण वा से ढज्जर। इति से परस्तद्वाएः .

कूराई कम्माई बाले पकुन्यमाणे

तेण दुपसेण मूढे विष्परियासु'वेह।

25

मुणिणा हु एवं पवेशयं :

अणोहन्तरा एण, नो य औहं तरित्तेण ;

अंतीरंगमा एण, नो य तीरं गमित्तेण; अपारंगमा एण, नो य पारं गमित्तेण।

आयागिज्जं च आयाय तम्भि टाणे न चिह्नइ,

वितहं पप्प्यस्तेयते तम्भि टाणम्भि चिह्नइ।

चहेसो पातगस्त नथिय; बाले पुण निइ काम-समणुजे असमियनुक्ते दुक्खी३०
दुक्साणमेव थावद्वमणुपरियद्व—ति वेमि ॥

परिष्वज्जन्ति तथा परिष्वापहजा भगवनीये)... सरणाए वा ।

(२) जागितु तुक्षलं पतये-सायं

मोगमेव अगुस्तोयन्ति—इह मेंसिं माणवाणं-तिविहेण...,(यथा ७, ११-२३. तत्र अवहरण स्थाने हरह भगवनीये)....विष्विरियासुवेहः—

5 (३) जासं च छन्दं च विग्निच धोरे, तुमं चेव,
तं सहं आहटदु, लेण सिया, तेण नो सिया ।

इष्मेव नायवुज्ज्ञन्ति जे जगा मोह-पातडा ।

धीभि लोए पञ्चद्विष; ते भो वयन्ति: “ एथाई आययाणाई ” । से दुक्खाए मोहाए
माराए नराए नरग-तिरिक्षाए । सयं मूढे धर्मं नाभिजाणइ ।

10 उयाहु वीरे: अप्यमाओ महा-मोहे !

(४) अलं कुसलस्त पमाप्णं सन्ति-मरणं सेपेहाए, मेडर-धर्मं सेपेहाए ।
“ नालं पास ”—अलं तव एएहि ।

एयं पास, मुणी, महब्यं, नायवाएज्ज फेणं ।

एस वीरे पसंसिए, जे न निविज्जाइ आयाणाए;

15 ‘ न मे देह ’ न कुप्पेज्जा, थोवे लघुं न खिसए,
पटिसेहिओ परिणमेजा ।

एयं मोणं समणुवासेज्जाति—ति वेमि ॥

२-५

(१) जमिणं विरूव-रुवेहि सत्योहि लोगस्त कम्म-समारम्भा कज्जन्ति, तं-जहा:
अप्यणो से पुत्राणं धूयाणं सुप्त्वाणं नार्हणं धार्हणं राईणं दासाणं दासीणं कम्म-
20 करीणं आएसाए, पुढो पहेणाए, सा'मासाए, पायरासाए सक्रिदि-सक्रिचओ कज्जर (२) इह
मेंसिं माणवाणं भोयणाए

समुद्दिष्ट अणगारे आरिए आरिय-पने आरिय-दंसी

‘ अयं संधा ’ ति अहूक्षु से नाशए नायावए न समणुजाणाइ ।

सञ्चामगन्धे परिज्ञाय निरामगन्धे परिव्वप् ।

25 (३) अदिससमाजे कय-विक्कएसु

से न किणे, न किणावए, किणन्तं न समणुजाणाए । से भिक्खू काळजे बलजे मायजे
खेयजे खण्यजे विषयजे स-समयजे पर-समयजे भावजे,

परिगाहे, अममायमाजे,

काले'णुडाई अपडिजे, दुहओ

छिता नियाइ ।

वयं पदिगाहं,

कम्मलं पाथ-पुञ्जर्ण ओगाहं च कडासणं;

एसु चेव जाणेज्जा
लद्दे आहारे अणगारो मायं जाणेज्जा

से जहे'यं मगवया पवेश्यं :

‘लाभो’ति न मज्जेज्जा, अलाभो’ति न सोयए,

बहुं पि लघ्नुं न निहे ।

परिमहाज्जो अप्पाणं अवसकेज्जा, अव्वहा यं पास परिहेज्जा । एस मगे आरिएहि
पवेश्य, जहे'थं कुस्ते नोकालिप्पेज्जासि—ति वेमि ।

(४) कामा दुरदक्षमा, जीवियं दुष्पियूहणं;

काम-कामी खलु यमं पुरिते, से सोयश जूरइ तिप्पश पिट्ट परितप्पइ ।

आयय-चक्रू लोग-विप्स्ती

लोगस्स अहे-भागं आणइ, उहुं भागं जाणइ, तिरियं भागं जाणर गढिए अणुप-
रिघ्मपाणे;

संधि विद्वा इह मच्चिएहि

‘एस धीरे पर्संसिए, जे वद्दे पडिमोयए’ ।

(५) जहा अन्तो तहा वाहिं, जहा वाहिं तहा अन्तो । अन्तो-अन्तो पूळ-रेह-१५
न्तराणि पासइ पुढो वितवन्ताई पण्डित् पडिलेहाए,

से मझमं परिवाए ।

मा य हु लालं पच्चासीं,

मा तेसु तिरिच्छं अप्पाणं आयायए । कासंकसे'यं खलु पुरिते, बद्द-नाई, कठेण मृदे
पुणो तं करेह लोर्म; 20

वेरं वड्हृहि अप्पणो ।

जमिणं परिकहिज्जद, इमस्त चेव पटिवूदणयाए

अमरायह महा-सडीं,

अट्टमेयं तु पेदाए अपरिच्छाएँ कन्दः;

“से तं जाणह, जमदं वेमि !”

(६) तेइच्छं पण्डित् पवयमाणे । से हन्ता छेता भेता लुभिता विलुभिता चद्व-
इता ‘अकडे करिस्तामि’ ति मक्षमाणे । 25

जस्त वि य गं करेह,

अलं वालस्स सोणं,

जे वा से करेह, वाले ।

न एवं अणगारस्स जायह—ति वेमि ॥

सिया तत्थे'गयरं विपरामुपरै,

छमु अक्षयरभिं कप्पह ।

सुहडी लालप्पमाणे

सएण दुक्खेण मूढे विप्परियामुवेह ।

5 सएण वि प्पमाएणं पुढो वयं पकुच्चइ,

जासु'मे पाणा पब्बहिया । पडिलेहाए “ नो निकरणाए ” :

एस परिज्ञा पवुच्चह, कम्मोवसन्ती ।

जे ममाइय-मुंद जहाह, से जहाह मंमोइयं;

से हु दिङ्ग-भए मुणी, जस्त नरिथ ममाइयं ।

10

तं परिज्ञाय मेहावी

विद्वा लोगं, वन्ता लोग-सञ्चं

से महमं परकमेज्जासि—ति वेमि ।

(३) नारहं सहए वीरे, वीरे नो सहए रहं;

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जई ।

15

सदे य फासे अहियासमाणे

निविन्द नन्दि इह जीवियस्त ।

मुणी मोर्ण समावाय शुणे कम्म-सरारिणं;

पन्तं लुहं सेवन्ति वीरा समर्त-दंसिणो ।

एस ओहंतरे मुणी तिणे मुखे विरए वियाहिए—ति वेमि ।

20

(४) दुव्वसु-मुणी अणाणाए तुच्छए गिलाइ वट्टए:

‘एस वीरे पसंसिए’, ‘अच्चेइ लोग-संज्ञोगं, एस नाए पवुच्चइ’; जे दुक्खं पवेइयं ‘इह माणवाणं’
तस्तु ‘दुक्खस्स कुसला परिक्षं उदाहरन्ति’: (५) ‘इति कम्म परिज्ञाय सब्बसो ’।

जे अणन्न-दंसी से अणन्नारामे, जे अणन्नारामे से अणन्न-दंसी:

जहा पुण्णस्स कर्थई, तहा तुच्छस्स कर्थई ।

25

जहा तुच्छस्स कर्थई, तहा पुण्णस्स कर्थई । अवि य हणे अणाइय माणे:

एरथभिं जाणः सेयं ति नरिथ

“ के'यं पुरिसे कं च न ए ? ! ” ‘एस वीरे पसंसिए, जे बद्दे पडिमोयए ।

उद्धृं अहं तिरियं दिसासु;

से सब्बओ सब्ब-परिन-चारी

न लिप्पहै छण-पण वीरे ।

30

से मेहावी, जे अणुघायाणस्स सेयन्ते, जे य वन्ध-पमोक्खमन्त्रेती:

कुसले पुण नो बद्दे

नो मुके से उजं च आरम्भे जं च नारम्भे ।

(५) अणारदं च नारम्भे:

छण-छणं परिनाय लोग-सक्तं च सन्वसो ।
दहौसो पासगस्स... (या० ७,१०.) ... आवहू अणुपरियहर—ति बेमि ॥

सी ओ स पि जं

३-१

(१) सुवा अमुणी, मुणिणो सयं जागरन्ति;
लोगांसि जाण अहियाय दुक्खं ।

समयं लोगस्स लाणिता

५

एत्य सत्थेऽवरए । जरिस्मे सदा य रुवा य गन्धा य रसा य फासा य अभिसमन्नागया
भवन्ति, (२) से आयवं नाणवं वेयवं धम्मवं वम्भवं, पन्नाणेहि परिजाणह लोगं ।

मुणी ति वच्चै, धम्मविड ति अङ्गू,
आवहू-सोए संगमिणं भिजाणइ ।

सीओसिण-चाई से निगन्ये अरह-रह-सहे फहसियं नो वेएइ ।

10

जागर-वेरोवरए वीरे एवं दुक्खापमोक्षसि ।

(३) जरा-मच्छु-वसोवणीए नरे,
सगयं मूढे धम्मं नाभिजाणइ ।

पासिय आउरे पाणे अपमरो परिव्वए ।

मन्ता एयं अहियं ति पास
‘आरम्भं दुक्खमिणं ति नच्चा
माई पमाई पुनरेइ गव्वं ।

15

उवेहमाणो सद-रुवेसु उज्जू,

मारामिसंकि मरणा पमुच्चइ ।

अप्पमरो कमीहि, उवरओ पाव-कमोहि, वीरे आव-नुरे, जे खेयने । (४) जे
पञ्चवजाय-सत्थस्स खेयने; से असत्थस्स खेयने; जे असत्थस्स खेयने, से पञ्चवजाय-
सत्थस्स खेयने ।

अकम्पस्स ववहारो न विजजइ
कमुणा उवाही जायह ।

कर्मं च पदिलेहाए कैम्प-मूलं च जं छणं पदिलेहिय, सर्वं समायाय ।
दोहि अन्तोहि अदिस्समाणे
तं परिनाय मेहावी
विइता लोगं, वन्ता लोग-सक्तं
से मर्सं परकमेज्जासि—ति बेमि ॥

३-२

१. जाई च युहुंच इहुज्ज पास,
भूएहि सावं पडिलेह जाणे;
तम्हा'इविज्ञो 'परमं' ति नच्चा
सम्मत-दंसी न करेह पावं ॥
२. उमुख पासं इह मट्टिचलहिं;
आरम्भ-जीवी उभयाणुपस्ती
कोमेसु गिद्वा निचयं करेन्ति,
संसिद्धमाणा पुनरेन्ति गढमं ॥
३. अधि से हासमासज्ज 'हन्ता नन्दी' ति मलइ।
अलं बालस्त संगेण, घेरं बहुइ अप्पणो ॥
४. तम्हा'इविज्ञं 'परमं' ति नच्चा
आयंक-दंसी न करेह पावं;
आगां च मूलं च विगिद्ध धारे
पलिच्छन्दियणं निकम्भ-दंसी ॥
- (१) एस मरणा पमुच्चइ, से हु दिष्ट-मए मुणी;
लोगंसि परम-दंसी
विवित-जीवी उवसन्ते समिए सहिए सया लए
कालकंसी परिव्यए ।
- बहुं च सलु पावं कमं पागडं ।
सच्चभिं धिंहु कुञ्बहा ।
- एत्योवरण मेहावी सबं पावं कमं होसेइ । (२) अणेग-चित्ते सलु अयं पुरिसे :
से केयणं अरिहइ पूरत्तप; से अज्ञ-वहाए अज्ञ-प्रियावाण अज्ञ-प्रिमहाए, जणवप-वहाए
जणवय-परियावाए जणवय-परिगाहाए ।
- (३) असेविता एयमहु इच्छेवेगे ससुहिथा;
तम्हा तं बिद्यं नो सेवए निस्तारं पासिय नाणी ।
उववायं चवणं नच्चा अणन्नं चर माहणे ।
से न छणे न छणावए छणन्तं नाणुजाणए ।
निविन्द नान्दि अरए पर्यासु
अणोमदंसी
- ३० निसणो पावोहि कमोहिं ।
५. कोहाइमाणं हणिया य धारे,
लोभस्त पासे निरयं महन्तं;
तम्हा हि धारे विरओ वहाओ

हिन्देऽज्ज सोयं लहुमूर्य-गामी ।
 ६. गन्धं परिज्ञाय इह'ज्ज वरि
 सोयं परिज्ञाय चरेज दन्ते;
 उम्मुमाँ लघुं इह माणवींह
 नो पाणिं पाणे॑ समारभेज्जासि—चि भेषि ॥

५

३-३

(१) संदिं कोगस्स जाणिचा
 आयओ वहिया पास, तम्हा न हन्ता ने वि पायए ।
 जमिणं अननमत-विश्विष्टाप
 पडिलेहाए॒ न करेई पावं कम्मं,

कि तथ्य, मुणी, कारणं सिमा ?

10

१. समयं ताथु॑वेहाए॒ अप्याणं विष्पसायए;
 अणन्न-परमन्नाणी नो पमाए॒ क्याइ वि ॥
 आय-मुते॒ सथा धेरे जाया-मायाए॒ जावए,

(२) विरागं रुचेसु गच्छेज्जा महया खुदुषहि वा ।
 आगां गङ्गे॑ परिन्नाय
 दोर्दृहि वि अन्तेहि॑ अदिस्तमाणे

से न छिज्जाइ न भिज्जाइ न उज्जाइ,
 न हम्मर (३) कंचणं सब्ब लोण ।

15

अवरेण पुढ्यं न सरन्ति एगे
 किमस्स॑ईयं कि वा॑गमिस्सं;

मासन्ति एगे इह माणवा उः
 जमस्स॑ईयं तमा॑गमिस्सं ।
 नाईयगद्दं न य आगमिस्सं
 अद्वं नियच्छन्ति तहागया उ;

20

विधूय कप्ये एयाणुपस्ति
 निज्जोस्तइचा लयए महेसी ।

25

२. का अरदे के या॑णन्दे ? एयं वि अग्नहे चरे;
 सब्बं हातं परिच्छज्ज अहृण्य-मुतो परिव्यए ।

(४) पुरिषा ! तुममेव तुमं-मित्रं, कि वहिया मित्रमिच्छसी ?
 अं जाणेज्जा उच्चालइयं, तं जाणेज्जा दूरालइयं; अं जाणेज्जा दूरालइयं, तं जाणेज्जा॑
 उच्चालइयं ।

पुरिषा ! अताणमेव अभिनिग्ज्ञ, एवं दुक्खा पगोक्खसि ।

पुरिषा । सच्चमेव समभिजाणा हि । सच्चस्स आणाए उवहिए मेहावी मारं तरर ।
सहिए घमममायाय सेयं समणुपस्तइ ।

दुहओ : जीवियस्तु परिवन्दण-माणण-पूयणाप, जंसि एगे पमायन्ति; सहिए दुक्खमत्ताए
पुढो; नो शज्जाए ।
५ पासिमं दविए लोए लोगालोग-पवद्याओ पसुचद—तिवेमि ॥

३-४

(१) से वन्ता कोहं च माणं च मायं च लोभं च एयं पासगस्स दंसणं, उवरय-
सत्थस्स पलियन्त-करस्स आयाणं सगडबिम । जे एगं जाणइ, से सब्बं जाणइ; जे सब्बं जाणइ,
से एगं जाणइ । सब्बओ पमत्तस्स भयं, सब्बओ अप्पमत्तस्स निथि भयं । २ जे 'एगं' नामे,
से 'बहुं' नामे; जे 'बहुं' नामे, से 'एगं' नामे ।

१० दुक्खं लोगस्स जाणिता वन्ता लोगस्स संदोगं
जन्ति वीरा महा-जाणं, परेण परं लन्ति, नावकंसन्ति जीवियं ।

(३) एगं विगिद्धमाणे पुढो विगिद्धइ, पुढो विगिद्धमाणे एगं विगिद्धइ ।
सही जाणाए मेहावी,
लोगं च आयाए अभिसमेचा अकुओभयं ।

१५ अथि सत्यं परेण परं, निथि असत्यं परेण परं :

(४) जे कोहन्दंसी से माण-दंसी, जे माण-दंसी से माय-दंती,लोभ-दं०....
पेज-दं० दोस-दं० मोह-दं० गव्भ-दं० जर्म-दं० मार-दं० नर्य-दं०
तिरिय-दं० दुक्ख-दंसी । से मेहावी अभिनिव्वेचेज्जा कोहं च माणं च
मायं च लोभं च पेजं च दोसं च मोहं च गव्भं च जर्मं च मारं च नरयं च तिरियं
२० च दुक्खं च । एयं (या ६.) आयाणं निसिद्धा सगडबिम । किमधि उवाही
पासगस्स ? न विजज्ञइ, नग्धि—ति वेमि ॥

स मा त्तं

४-१

(१) से वेमि: जे य अईया वे य पटुप्पदा जे य आगमिस्सा अरहन्ता भग-
न्वतो, सब्बे से एघमाइक्कन्ति एवं भासन्ति एवं पदवेन्ति एवं परवेन्ति:—सब्बे पाणा
सब्बे मूर्या सब्बे जीवा सब्बे सत्ता न हन्तव्वा न अज्जायेयव्वा न परिघेत्वाहुन् परियायेयव्वा
२५ न उद्देयव्वा । (२) एस घमो सुद्दे गितिए सासाए समेच्च लोगं स्तेयत्वेहि । पवेषण, तं-जहा-
चहिप्पसु वा अणुहिप्पसु वा, उवहिएसु वा अणुवहिएसु वा, उवरय-दण्डेसु वा अणुवरयः
दण्डेसु वा, सोवहिप्पसु वा अणुवहिप्पसु वा, संजोग-रेसु वा असंजोग-रेसु वा ।

तथं चे'यं तदा चे'यं, अस्ति चे'यं पसुचद ।

(३) तं आस्तु न निहे, न निकिलवे, जाणितु धर्मं जहा-तदा ।

दिहृहि नव्येषं गच्छेत्जा, नो लोगस्ते'सं चरे ।

जस्त नेथि इमा नाई, अक्षा तस्त कन्त्रो सिया ?

दिहृं सुयं मयं विद्यायं, जं एवं परिफहिजइ । समेमाणा चलेमाणा ‘ उणो-पुणो
जाईं पक्षप्येन्ति ’ ; ‘ अहो य रायो जयमाणे धीरे, ’ सया आगय-प्राणे ।
पमरे वहिया पास, अष्टमवे सया परकमेज्जासि—ति बेमि ॥ ५

४-२

(१) जे आसवा ते परिस्तवा, जे परिस्तवा ते आसवा । जे अणासवा ते अपरिस्तवा, जे
अपरिस्तवा ते अणासवा । एए पए संबुझमाणे लोगं च आणाए अभितमेच्चा पुढो पवेईं
आधाइ नाणी इह माणवाण

संसार पदिवनार्ण संबुझमाणाणं विद्याण-प्रताणः

(२) अट्ठा वि सन्ता अटु वा पमरा ।

अहा-सद्यमिणं ति बेमि:

ना'णागमो मच्चु-मुदस्त अतिथि;

इच्छा-पर्णीया वंकानिकेया

काल-नगहीयां निच्चप निविहा

पुढो-पुढो जाईं पक्षप्येन्ति ।

10

(३) ऐगे वयन्ति अटु वा वि नाणी
नाणी वयन्ति अटु वा वि ऐगे:

आवन्ती केया'वन्ती लोगंसि समणा य माहणा य पुढो विचायं वयन्ति:—“ से दिहृं च
णे, सुयं च णे, मयं च णे, विद्यायं च णे,

ठहूं अहे यों तिरियं दिसासु

20

सब्बथो मुपडिलेहियं च णे: सब्बे पाणा सब्बे मूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता हन्तव्या
अज्ञायेयव्या परिषेत्वा उद्येयव्या;

एथं पि जाणह: न-येत्थ दोसो ” ।

(४) अणारिय-वयणमेयं । तथं जे ते आरिया, ते एवं वयासी:—“ से दुहिहं च भे,
दुस्सुयं च भे, दुम्यं भे, दुविद्यायं च भे, ‘ उहूं दुप्पडिलेहियं च भे, २५
जं यं तुझे एवमाइखलह एवं भासाह एवं पक्षवेद एवं पर्लवेद: सब्बे....दोसो ’ । अणारियवयण-
मयं । (५) वयं पुण एवमाइखलामो एवं भासामो एवं पक्षवेमो एवं पर्लवेमो: सब्बे पाणा
ए न हन्तव्या न अज्ञायेयव्या न परियायेयव्या न परिषेत्वा न उद्येयव्या; ‘ एथं पि
जाणह: न-येत्थ दोसो । ’ आरिय-वयणमेयं ” । पुर्वं निकाय समयं पत्रेयं-पत्रेयं पुच्छि-
स्सामो:—“ इं भो पावाउया । किं भे सायं दुक्खं उयाहु आसायं ? ” समिया-पदिवने यावि ३०
एवं व्याः—“ सब्बेति पाणाणे इं असायं अपरिणिवाणं महामयं दुक्खं ” ति—ति बेमि ॥

४-३

(१) उवेह एणं बहिया य लोगं ।

से सब्ब-लोगंसि खें केइ विनूः

अणुवीइ पास निकिखत-दण्डा

जे केइ सता पलियं चयन्ति ।

5

नरा मुयुच्चा धमविड ति अञ्जू

' आरम्भजं दुक्खमिणं ' ति नच्चा

एवमाहु सम्मतदेसिणो (२) ते सब्बे पायाइया;

दुक्खसस्तु कुसला परिन्नमुदाहरन्ति:

‘ इति कम्म परिलाय सब्बसो । ॥ इद आणा-कंखी पणिडण अनिहे

10

एगमप्पाणं सौपेहाए थुणे सरीरं,

कसेहि अप्पाणं, जेरेहि अप्पाणं

जहा गुण्णाईं कट्टाईं हृववाहो पमतथड ।

एवमत्त-समाहिष अनिहे

विगिञ्च कोहं अविकम्भमाणे

15

इमं निरुद्धा'उयं सौपेहाए,

दुक्खं च जाण अदु वा'गमिस्तं;

मुढो फासाईं च फासएः

लोगं च पास विष्णुदमाणं,

(३) जे निरुद्धा पावेहि कमोहिं अनियाणा ते वियाहिया ।

20

सम्हा'इविजजोऽनो पटिसंजलेजजासि—ति वेमि ॥

४-४

(१) आवीलए परीलए निर्णीलए

बहिता पुव्य-संजोगं

हिच्चा उवसमं;

तम्हा अविमणे थीरे

25

सारए समिए सहिष उया जप—दुरण्णुचरो मग्गो वीराणं अनियट्ट-गामीण—

विगिञ्च मंस-सोणियं ।

(२) एस पुरिसे दविए थीरे आयागिजो वियाहिष,

जे खुण्णाई समुस्तवं

वसिता बम्भचेरंति ।

नेचेहि पलिच्छन्नोहि

आयाण-सोय-गटिष बाले अब्बोच्छन्न-बन्धणे अणभिकगत-संजोण,

80

समांसि अधिजाणओ

आणाए लम्हो नरिथ ति वेमि,

(३) जस्स नरिथ पुरा पच्छा, मज्जो तस्स कुओ सिया ?

से हु पक्षाणमन्ते बुद्धे आरभोवरए;

सम्प्रमेयं ति पासहा !

5

लेण बन्धं वहं घोरे परियावं च दारुणं

पलिच्छिन्दिय वाहिरगं च सोयं

निकम्म-दंसी इह मच्छिएहि,

कम्मणा स-फलं दहुं तमो निजजाह वेयवी !

(४) जे खलू भो वीरा समिया सहिया सवा जया संघट-दंसिणो आओवरया 10
अहा-तहं लोगं उवेहमाणा,

पाईं पडीणं दाहिणं उदीणं इति, सच्चसि परिविचिह्निमु, साहिस्सामो नाणं वीरणं
समियाणं सहियाणं सवा जयाणं संघट-दंसीणं आओवरयाणं अहा-तहा लोगं समुद्रेहमाणाणं।
किमिथ उवाही पासगस्स ? न विजज्जइ, नरिथ—ति वेमि ॥

लोग सारो

(आवन्ती)

५-१

(१) आवन्ती केयावन्ती लोगंसि विष्वरामुसन्ती अडाए अणडाए वा एसु चेव 15
विष्वरामुसन्ती । गुरु से काया, तथो से मारस्स अन्तो; जयो से मारस्स अन्तो, तथो से
दूरे । नेव से अन्तो, नेव से दूरे । से पासइ कुसियमिव कुसगो पणुवं निवर्यं वाएरियं
एवं बालस्स लीवियं मन्दस्स अधिजाणओ ।

कूराइ कम्माइ बाले पकुबगाणे

तेण दुक्खेण मूढे विष्वरियासमेइ,

मौहेण गवं मरणाह पह,

20

‘एत्य मौहे पुणो-पुणो’ । संसर्यं परिजाणओ संसारे परिजाए भवइ; संसर्यं अपरि-
जाणओ संसारे अपरिजाए भवइ ।

जे डेए, सागारियं न सेवए,

फटु एवमववाणओ विह्या मन्दस्स वालिया लद्धा हुरथा ।

पडिलेहाए आयमेता अणासेवणाए—ति वेमि ।

25

(२) पासह एगे

लवेसु गिद्दे परिणिज्जयणे,

एत्य फासे पुणो-पुणो’ ।

आवन्ती केयावन्ती लोगंसि आरभजीवी, एसु चेव आरभजीवी

130

एवं वि बाले परिपच्चमाणे

रमइ पावेहि कम्भेहि

असरणं । सरणं । ति मन्माणे ।

इहमेगोसिं एग-चरिया भवइ । (३) से बहु-कोहे बहु-माणे बहु-भाए बहु-लोभे, बहु-ए

बहु-नडे बहु-सुढे बहु-संक्षे ज्ञासव-सक्षी पलिजोच्छन्ने; उठिय-वायं पवयमाणे—‘मा मे केइ

अदक्षू’। अज्ञान-पमाय-दोसेणं सययं मूढे धम्मं नाभिजानाइ ।

अदक्षू पया, माणव, कम्भ-कोविया,

जे अणुवरया अविज्ञाए पलिमोक्षमाहु; आवद्वमेव अणुपरियद्वन्ति—ति वेमि ॥

५-२

(१) आवन्ती केया'वन्ती लोगांसि अणारम्भ-जीवी, एएसु चेव अणारम्भजीवी ।

एत्थोवरए तं ज्ञोसमाणे

१० ‘अयं संधी’ ति अदक्षू, जे ‘इमस्स विग्रहस्स अयं खणे’
ति अज्ञेसी ।

एस मग्गे आरिष्टहि पवेरए ।

(२) उठिए नो पमायए ।

‘जाणिषु दुक्खं पवेय-सायं’;

पुढो-छन्दा इह माणवा—पुढो दुक्खं पवेइयं ।

से अविहिसमाणे अनवयमाणे

पुढो फासे विपणोल्पण, एस समिया-परियाए वियाहिए ।

(३) जे असता पावेहि कम्भेहि उयाहु : “ते आयका कुसन्ति” इति, उयाहु

२० वारे : ‘ते फासे पुढोहियासए’। से पुव्वं पेयं पच्छा वेयं भेडर-धम्मं विद्वंसण-धम्मं अघुवं अनितियं असासयं चयावच्छयं विपरिणाम-धम्मं पासह । एवंलक्ष-संधि समुवेहमाणस्स एगाय-यण-रयस्स इह विष्मुक्तस्स ननिथ मग्गे विरयस्स—ति वेमि ।

(४) आवन्ती केया'वन्ती लोगांसि परिग्रहावन्ती : से अप्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमन्तं वा अचिंतं वा, एएसु चेव परिग्रहावन्ती, एयेदेवेगेति महबमयं भवइ ।

२५ लोग-वितं च णं उवेहाए, एए संगे अविज्ञानओ,

‘से मुप्पटिवुदं सूचणीयं’ ति नच्चा

पुरिता ! परम-चक्रवू विपरकम एएसु चेव वर्मचेरे । ति वेमि;

(५) “से कुयं च से अज्ञश्चयं च मे” :

बन्ध-प्यमोक्षो तुज्ज्ञंज्ञात्येव ।

एथ विरए अणगारे दीह-रायं तिदक्षणं;

पमचे वहिया पास, अप्पमते परिव्वए ।

एयं मौणं सम्म अणुवासेज्जासि—ति वेमि ।

५-३

(१) आवन्ती केषा'दःती लोर्गसि अपरिग्रहावन्ती, पश्चु चेव अपरिग्रहावन्ती ।
सोच्चा वं भेहावी पण्डियाण निसमिया

—समियाए पमे आरिहि पवेश्य—“जहत्थ मण् संधी शोसिण, एवं अक्षत्य; संधी
दुर्ज्जोसए भवा । तस्मा वेमि” :

नो निष्ठवेचज वीरियं ।

5

(२) जे पुञ्जुद्वायी नो पच्छा-निवार्हि, जे पुञ्जुद्वार्हि पच्छा-निवार्हि, जे नो पुञ्जुद्वार्हि नो
पच्छा-निवार्हि

से यि तारिसए सिया, जे परिकाय लोगमनेसिए ।

एयं नियाय मुणिणा पवेश्यं,

10

इह आणा कंखी पण्डेण अनिहि पुञ्जावर-रायं लवमाणे
सपा सीर्ल सौपेहाए मुणिया भवे अकामे अक्षत्ये ।
इमेण चेव जुज्ज्वाहि । कि ते जुज्ज्वाण बज्ज्वामो ?
बुद्धारिहं खलु दुर्लभं ।

जहेत्थ कुरुतेहि परिका-विवेगे भासिए ।

चुण् हु बाले गङ्गाभाद रिज्जाइ;

15

(३) ‘अस्सि चेयं पञ्जुच्चर्हि’ । रुवांसि वा छण्णसि वा ‘से हु एगे संविद्धमण्डमुणि’,
असहा लोगमुवेहमाणे
‘इति कम्मं परिकाय सववत्तो से न हिसर’,
संजर्मई, नो पगबर्मई ।

20

(४) उवेहमाणो पत्तेय-सायं वर्णाण्डी
नारमे कंचणं सव्व-लोण,
पण-प्पमुहे विदिस-प्पहणे
निविष्ण-चारी अरण पवासु ।

से वसुमं सव्व-समलागय-पन्नाणेण अप्पाणेण अकरणिज्जं पावं कम्मन्तं नो अक्षे-
सी । जे सम्मं ति पासहा, तं मोणं ति पासहा; जे मोणं ति पासहा तं सम्मं ति पासहा । न 25
इमं सकं सिदिलेहि आशज्जर्माणोहि गुणासापहि वंक-समायारेहि पमचेहि गारमावत्तनेहि ।

(५) मुणि मोणं समायाए धुमे कम्म-सरीरं;

पन्तं छहं च सेवन्ती वीरा सम्मर्देसिणो ।

एस ओहंसरे मुणि तिणे मुरे विरए वियाहिए—चि वेमि ॥

५-४

(१) गांमाणु-गामे धुञ्जामाणस
दुञ्जायं दुष्परक्षन्त भवेह अवियत्स्त भिक्खुणोः
यवसा वि एगे तुरुया कुप्पन्ति माणवा;

30

दन्दयमाणे य नरे महाया मोहेण सुज्जर—

(२) संबोहा बहवे मुज्जो दुरक्षकमा अजाणओ अपासओ ।

एवं से मा होड ! एवं छुसलस्त वंसणं,
सहिंश्चाए तमुरीए तथुरकारे तस्पुन्नी तत्त्विवेत्तणे
लयं-विद्वारी चित्त-निवार्द
पन्थ-निज्जार्द बलिन्नाहिरे
पासिय पामे गच्छेऽज्ञा ।

(३) से अभिकममाणे पदिकममाणे, संकुचेमाणे पसारेमाणे
विनियहमाणे संपलिमउज्जमाणे ।

१० एग्या मुण-समियस्त रीयओ काय-संकासं अणुचिण्णा एग्या पाणा उद्दायन्ति; इह
लोग-वेषण-नेउजावटिं ।
जे आउद्दां-क्यं कम्म, तं परिज्ञाय विवेगमेव;
एवं से अप्पमाएं विवेगं किछुर वेयवी ।

(४) से पह्य-दंसी पह्य-परिक्षणे उवषुन्ते सहिए सया जए दुडं
विष्विवेष्य अप्पाणः ' किमेत जणो करिस्त ?
एस से परमारामे, जाओ लोगमि इथिभो ' ।

मुणिणा हु एवं पवेईयः (५) उठाहिज्जमाणे गाम-धमीहि अविनिभवलात्तप,
अदि औमोयरियं युज्जा, अवि उत्तुं ठाणं ठाएज्जा, अवि गामाणुगामं दूज्जेऽज्ञा, अवि आहारं
बोच्छिन्देऽज्ञा, अवि चण्ड इर्दीमु मणं : पुढं दण्डा पच्छा फासा, पुञ्चं फासा पच्छा दण्डा—इच्चेण
२० कच्छा संगकरा भवन्ति । पडिलेहाए आगमेता आगवेज्जा अणासेवणाए—ति वेमि ।
से नो काहिं नो पासणिए नो संपसारण, नो मामए नो क्य-किरिए; ' वद-गुरे
अवश्य-मंवुडे ' परिवर्जय सया पावं । एवं मोणं समणुवासेज्जासि—ति वेमि ।

५-५

(१) से वेमि सं-ज्ञा :

अवि हरए पितुप्पो समंसि भोमें चिट्ठ,

२५ उदसन्त-रए सारस्तमाने से चिट्ठ सोयमव्याग्य ।

से पास सच्चयो युरे पास लोए मोहिणो,

जे य पत्राणमन्ता पवुदा आरम्भोवरया;

समम्बेयं ति पासदा ।

' अप्पाण अप्पाए परिव्यन्ति'— ति वेमि ।

३० (२) वितिग्न्य-रामावजेन अप्पादेवं नो लमइ समाई । ' उिया वेमे अणुग-
प्पन्ति ?, जानिया वेमे असुगच्छन्ति ? ' अणुगच्छमाणेहि अणुगच्छमाणे कहं न निविरजे ?

(३) तपेव सच्चं नसंह, जे विजेति पवेईय ।

पटिष्ठ एं समुक्षसा संरव्यनामस्तु ' समिये ' ति मत्राणामस्तु एग्या समिया

होइ, ' 'स०' , ति म० प० 'असमिया' होइ, ' 'असमिय' ' ति० म० प० समिया होइ, ' 'अ०' ति० म० प० असमिया होइ। ' 'समिय' ' ति० म० 'समिया' वा असमिया वा'; समिया होइ उवेहाए, ' 'असमिय' ' ति० म० 'स०वा अ० वा' असमिया होइ उवेहाए। उवेहामाणं अणुवेहामाणं वृया : " उवेहाहि समियाए" । इच्छेवं तत्थ संधी ज्ञोसिए मवइ ।

(४) से उद्घियस्त ठियस्त गई समणुपस्तह,

पृथ्य वि बाल-भावे अप्पाणं नो उवदसेउज्जा ।

तुमं सि नाम तं खेव लं ' हन्तव्य' ति मन्नसि ।

तुमं सि नाम तं खेव लं 'अउजावेयव्य' ति मलसि, . . . 'परियावेयव्य' . . .

'परिधेतव्य' . . . 'उद्धवेयव्य' . . . 'अब्जु खेयपटिवुद्ग-जीवी' ।

तम्हा न हन्ता न वि धायए ।

10

(५) अणुसंवेयणं अप्पाणेण ' जं हन्तव्य' ति नामिपत्थए ।

जेआया से विज्ञाया, जे विन्नाया से आया : जेण विजाणह से आया । तं पहुच्च पटिसंखाए एस आया-वाई ।

समियाए परियाए वियाहिए—ति वेमि ॥

५-६

(१) अणाणाए एगे सोवद्वाणा, वाणाए एगे निरुवद्वाणा पूर्ण ते मा होड ।¹⁵
एयं कुसलस्त दंसणं, ' तदिद्वीए तम्मुतीए, तप्पुरकारे तस्तन्नी तक्किवेतणे । '

अभिभूय अद्वक्त्वं अणमिम्मए; पहु निरालम्बणवाए जे महं अवही-मणे ।

पवाएणं पवायं जाणेज्जा सह-समुख्याए पर-वायरणेण अन्नोसि वा अन्तिए सुच्चा,

(५) निदेसं नाइवेउज्जा मेहावी ।

सुपटिलेहिय सब्बओ सब्बयाए सममेव समभिजाणिया ।

20

इहारामं परिन्नाय अलुण्ण-गुत्तो परिव्यए;

निदियही वीरे आगमेणं सया परकमेज्जासि—ति वेमि ।

(२) उहुं सोया अहे सोया तिरियं सोया वियाहिया;

एए सोया वियक्त्वाया जेहिं सर्गं ति पासदा ।

आवहुं तु उवेहाए पृथ्य विरमेज्ज खेयवी,

25

विणइतु सोयं निवस्म

एस महमकम्मा जाइह पासह, पटिलेहाए नावक्केसह; (३) इह आगई गई परिज्ञाय अच्छेइ जाइ-मरणस्त वडुगां विक्साय-रए;

सब्बे सरा नियट्टनित ।

तका जत्थ न विज्जर, मई तत्थ न गाहिया ।

30

ओए अप्पद्वाणस्त सेयज्जे : (४) से न दीहे न हस्ते न वहे न तसे न चर्वसे न परिमष्टहे, न किहे न नीके न लौहिए न हालिहे न मुकिहे, न मुरीभिगंपेन दुरभिगधे, न तिते न कहुए न क्षाए न अंधिले न महुरे, न कक्षहे न मठए, न गुरुए न उहुए, न सीए न उण्हे,

उन्नयमाणे य नरे महाया मोहेण मुज्ज्वल—

(२) संबाहा वहवे मुज्जो दुरदक्षमा अजाणओ अपासओ ।

एयं ते मा होत । एयं बुसलस्प दंसणं,
5 तदिद्वीष तम्मुरीए तप्तुरकारे तस्मन्नी तन्निवेसणे
जयं-विद्वारी चित्त-निवार्द
पन्थ-निज्ज्वार्द बलि-वाहिरे
पासिय पाणे गच्छेज्जा ।

(३) से अभिक्रममाणे पडिक्रममाणे, संकुचेमाणे पसारेमाणे
विनियट्टमाणे संपलिमउज्जमाणे ।

10 एग्या गुण-समियस्त रीयओ काय-संकासं अणुचिणा एग्या पाणा उद्दायन्ति; इह
लोग-वेयण-जेज्जावटियं ।

लं आउट्ट-कर्य कम्म, तं परिज्ञाय विवेगमेह;
एवं से अप्पमाएण विवेगं किंद्र वेयवी ।

(४) से पह्य-दंसी पह्य-प्रतिज्ञाणे उवसन्ते सहिए सया जए दुहं
15 विष्पिलिवेह अप्पाणः ‘ किमेत जणो करिस्तर ?
एस से परमारामे, जाओ लोगभिम इथिओ ’ ।

मुणिणा हु एयं पवेह्यं : (५) उव्वाहिज्जमाणे गाम-धम्मोहि अविनिभवलासए,
अवि ओमोयरियं कुज्जा, अवि उहुं ठाणं ठाएज्जा, अवि गामाणुगामं दूरुज्जेज्जा, अवि भाहारं
चोच्छिन्देज्जा, अवि चाए इत्थीसु मणं : पुवं दण्डा पच्छा फासा, पुवं फासा पच्छा दण्डा—इच्छेए
20 कहहा संगकरा मवन्ति । पठिलेह आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए—ति वेमि ।

से नो काहिए नो पासणिए नो संपसारए नो मामए नो कय-किरिए; ‘ धह-गुरुे
अज्ञाप्प-संतुडे ’ परिवज्जए सया पावं । एयं मोणं समणुवासेज्जासि—ति वेमि ।

५-५

(१) से वेमि सं-जहा :

अवि हरए पठिपुणो समंसि भोमें चिंद्रह;

25 उवसन्त-ए सारक्खमाणे से चिंद्र सोयमज्जा-गए ।

से पास सब्बओ गुर्चे पास लोए महेसिणो,
जे य पन्नाणमन्ता पवुद्वा आरम्भोवरया;

सम्मेयं ति पासहा ।

‘ कालसस कंसाए परिवयन्ति’—ति वेमि ।

(२) विगिद्य-समावलेण अप्पाणेण नो लमइ समाहि । ‘ सिया वेगे अणुग-
च्छन्ति ?, असिया वेगे अणुगच्छन्ति ? ’ अणुगच्छमाणेहि अणुगच्छमाणे कहं न निविज्जे ?

(३) तमेव सच्च नीसंक, जं जिणोहि पवेह्यं ।

सद्गिष्ठु यं समणुक्ससं संपञ्चयमाणस्त “ समियं ” ति मन्माणस्त एग्या समिया

होइ, ' ' स० ' ' ति म० ए० ' असमिया ' होइ, ' ' असमियं ' ति० म० ए० सुमिया होइ, ' ' अ० ' ' ति० म० ए० असमिया होइ। ' ' समियं ' ति० म० ' समिया-वा असमिया वा ', समिया होइ उवेहाए, ' ' असमियं ' ति० म० ' स०वा अ० वा ' असमिया होइ उवेहाए। उवेहमाणं अणुवेहमाणं धूया : " उवेहाहि समियाए " । इच्छेवं तत्थ संघी शोसिण मवर।

(४) से उद्दिष्टस्त ठियस्त गरं समणुपस्सह,
एथ वि बाल-भावे अप्याणं नो उवदंसेज्जा ।

तुमं सि नाम तं चेव जं ' हन्तव्वं ' ति० मन्त्रसि ।

तुमं सि नाम तं चेव जं ' अज्जावेयव्वं ' ति० मन्त्रसि, . . . ' परियावेयव्वं ' . . .
' परिघेतव्वं ' . . . ' उद्देषव्वं ' . . . ' अस्तू चेयपदिवुद्भीवी ' ।

तम्हा न हन्ता न वि पायए ।

10

(५) अणुसंवेयणं अप्याणेण ' जं हन्तव्वं ' ति० नामिपत्थए ।

जे आया से विकाया, जे विनाया से आया : जेण विजाणए से आया । सं
पदुच्च पदिसंखाए एस आया-वाई ।

समियाए परियाए वियाहिए—ति० वेमि ॥

५-६

(१) अणाणाए एगे सोवद्वाणा, आणाए एगे निरुद्वाणा एयं से मा होड । 15
एयं कुसलस्त दंसणं, ' तदिहिए तमुक्तीए, तपुरुकारे तस्तन्ती तत्रिवेत्तणे । '

अभिभूय अहक्त्यु अणभिभूप; पहू निरालम्बणयाए जे महं अबही-मणे ।

पदाएणं पदावं जाणेज्जा सह-समुद्रयाए पर-वायरणेण अन्तेसि वा अन्तिए सोच्चा,

(५) निदेसं नारवतेज्जा मेहावी ।

सुपदिलोहिय सध्यओ सध्ययाए सममेव समभिजाणिया ।

20

इहारामं परिन्नाय अछोण-नुचो परिव्वए;

निहियट्टी वीरे आगमेण सया परकमेज्जासि—ति० वेमि ।

(२) उहुं सोया अहे सोया तिरियं सोया वियाहिया;

एए सोया वियस्तस्याया वेहि संगं ति० पासदा ।

आवर्द्दु तु उवेहाए एथ विस्मेज्ज वेयवी,

विणइत्तु सोयं निकलम्म

25

एस महमकम्मा जाणए पासइ, पदिलोहाए नावकंख्यइ; (३) इह आगाए गरं परिकाय
अच्चेइ जाइ-मरणस्त वडुमाणं विकलाय-रण;

सब्बे तरा नियद्वन्निति ।

तका जत्थ न विज्जइ, मर्दे तत्थ न गाहिया ।

30

ओए अप्यरद्वाणस्त लेयले : (४) से न दीहे न हस्ते न वहे न तसे न चउरसे न
परिमण्डले, न किहे न नीले न लोहिए न हालिए न मुक्तिले, न सुरभिगधे न दुरभिगधे, न तिचे न
कहुण न कसाए न अंविले न महुरे, न कक्षस्ते न मउए, न गुरुण न लहुए, न सीए न उण्हे,

न निद्रे न लुक्षे, न काऊ, न रुहे न संगे, न इत्थी न पुरिसे न अक्तहा । ‘परिक्षें सने’ उवमा
न विज्ञाह । अरुवी सत्ता, अपयस्त् पर्यं नत्यि । से न सदे न रुखे न गन्धे न रसे न फासे इच्छै-
यावन्ति—ति वेमि ॥

धु यं

६-१

(१) ओबुज्ज्ञमाणे इह माणवेसु

आधाइ से

नरे जस्ति'माओ लाईओ सब्बओ सुपटिलेहियाओ भवन्ति, अग्धाइ से धुयं णाणमणेलिसं ।

से किट्टइ तेति समुद्दियाणं निकिखत-दण्डाणं

समाहियाणं पक्कागमन्ताणं इह मुति-मग्गं ।

एवं पेगे महार्वद्वा विपरकभन्ति,

पासह-एगे अवसरीयमाणे अणत-पने ।

(२) से वेमि : से जहा वि कुम्मे हरए विनिविहृचिचे

पच्चत्त-पलासे उम्मुगं से नो लभह ।

भडगा इव प्रतिवेत्तं नो चयन्ति,

एवं पेगे अणेग-ख्वेहि कुलेहि जाया

ख्वेहि सत्ता कलुणं थणन्ति,

नियाणओ ते न लभान्त मोक्खं ।

अह पास तेहि कुलेहि आयताए जाया

१. गण्डी अदु वा कोट्टी रायंसा, अवमारियं

काणियं शिमियं चेव कुणियं खुजियं तहा,

२. चयरं च पास मुर्चि च मूर्चियं च मिलासिं

वेवयं पीढ-सर्पिष्य च सिलवद्दं महु-मेहिण—

३. गोलसु एपे रोगा अक्साया अणुपुव्यसो ।

यह एं पुसन्ति आयंका फासा य असमझसा ।

४. मरणं तेसि सौपेहाए उववायं चवणं च नच्चा

परिपागं च सौपेहाए तं कुणेह जहा-तहा ।

(३) सन्ति पाणा अंथा तमांसि वियाहिया ।

तामेव सदमसदमइच्चन उच्चावद्द-फासे पटिसंवेष्ट ।

शुद्देहेयं पवेद्यं ।

(४) सन्ति पाणा वासगा रसगा उदाए उदय-घरा आगास-गामिणो—

पाणा पाणे किलेसन्ति : पास लोए महव्यं ।

बहु-दुक्षा हु जन्तवो : सत्ता कामोहि माणवा ।

अवस्थेण वहं गच्छन्ति सरीरेण पमगुरेण;
 अहे से बहु-दुखेण इती वाले पकुब्रह्म;
 पृथं रोगे बहु नशा आउरा पारियावए ।
 “ नालं पास ”—अलं तवे'पहिं !
 पृथं पास, मुणी, महाभयं, नाइवाएज्ज कंचणं ।
 आयाण भी सुस्तुस भो ।

धूय-वायं पवेएस्तामि ।

(५) इह खलु अचत्ताए तोहिं-तोहिं कुलेहि अभिसेण अभिसंभूया अभिसंजायां
 अभिनिवृद्धा अभिसंबुद्धा अभिनिप्रसन्ना अणुपुव्वेण महामुणी । तं
 परकमन्तं परिदेवमाणा

10

“ मा णे चयाहि ” इति ते वयन्ति;

(६) छद्मोकणीया अज्ञानवच्छा

अुकन्द-कारी जणागा रुद्धन्ति ।

अतारिसे मुणी ओहंतरण, जणागा लेण विष्पज्जाडा; सरणं तत्य नो समेई । किह नाम
 से तत्य रमह ? पृथं नाणं सया समणुवासेज्जासि ति—बोमि ॥

15

६-३

(१) आउरे लोग मायाए

चहता पुष्प-संजोगं

हिच्चा उवसर्म

वसिता वस्त्रचेरांसि

घसु वा अणुवसु वा

जाणिषु धमं जहा-तहा

अहोगे तपच्चाई

कुसीला वत्यं पदिग्गहं-कम्बलं पाय-पुष्ट्याणं विश्रोसिज्जा अणुपुव्वेण अणहियासेमाणा
 परसिहे दुरहियासर । कामे समायामाणस्त इवारीं वा सुहुदे वा अपरि-माणाए भेओ पृथं से
 अन्तराइहि कामेहि आकेवलिपहि; अविइणा चे'ए ।

25

(२) अहोगे धम्मायाए—

आयाण-प्रभिन्नुपणिहिए चे अपलीयमाणे देडे;

सवं गोहि परिकाय एस पणण महा-मुणी,

अद्यन्त सव्यभी संगं

न महं अत्थो ' ति । इति ' एगो थदमंसि ' जयमाणे

80

एत्य विरए अणगोरे रीयए ।

जे अजेले परिदुस्ति संचिप्रसाद, से

अकुडे व हप व लुसिए वा
पलिय-प्पगन्थे अटु वा पगन्थे अतोहैं

सद-फासेहैं । इति संखाए एगयरे अन्नये
अभिज्ञाय तिइखलमाणे परिव्वए ।

५ जे प हिं । जे द अहिर्माणे-

बेद्वा सब्बे विसोतियं संफासे फासे समिय-दंसणे ।

(३) एए मो नगिणा बुता, जे लोगंसि अणागमण-वभिणो
आणाए मारमं धर्म, एस उतर-वाए इद माणवाणं वियादिए ।

एथोव्वए सं क्षीसुमाणे

१० वायाणिज्जं परिज्ञाय परियाएं विग्नश्च ।

इहमेगेसि एग-चरिया होइ । तथिय'परा-इयरेहैं बुलेहैं मुद्रे'त्तणाए सब्बे'त्तणाए
से मेहावी परिव्वए;

सुविध वा अटु वा दुनिम अटु वा तथ्य भेरवा:

'पाणा पाणे किलेसन्ति' । ते फासे 'पुढो वीरै'हियासप्पजासि'—ति वेमि ॥

६-३

१५ (१) एमे छु, मुणी, आयाणं ।

'सया सुबक्षाय-धम्मे, ' 'विघ्न्य-कप्पे निज्जोसइता' । जे अचेळे परियुक्तिए, तस्त णं
भिक्षुस्त नो एवं भवहः 'परिज्ञणे मे वयेह; वर्थं जाइस्सामि, मुर्खं जाइस्सामि, सूईं जाइस्सामि,
संधिस्सामि, सिद्धिस्सामि, उक्तिस्सामि, तुक्तिस्सामि, परिहिस्सामि,
पाडजिस्सामि' । (२) अटु वा तथ्य परक्षमन्तं भुज्जो अचेळं तण-फासा फुसन्ति, सीय-का०
२० कु०, तेबो-का० कु०, दंसमसग-का० कु०—एगयरे अन्नये विलव-रुवे फासे अहियसेहैं अचेळे
आपवामगमीणे तसे से अभिसमन्नागए भवह जहै'ये भगवया पवेश्यं, तमेव अभिसमेच्चा
सब्बदो सब्बयाए सम्प्रमेव सम्प्रज्ञाण्या ।

एवं तेसिं महा-वीराणं विर-रायं पुन्वारं वासारं रीय-माणाणं दवियाणं
पात्र'हियासियं

२५ आगय-पद्धाणाणं किसा बहु भवन्ति पशुणुद् य फैस-स्तोषिणु ।

विस्तेणी-कदु परिज्ञाय एस तिणो मुचे विरेव वियादिए—ति वेमि ।

(३) विरयं भिक्षुं रीयन्तं चिर-राओसियं अरई तथ्य कि विधारए ?

संधेमाणे समुद्दिए;

३० जहा से थोवे असंदीणे एवं से घम्ने आरिय-देसिए ।

ते अणवक्षमाणा अणवामाणा दरया मेहाविणो पणिड्या । एवं तेसिं भगवजो अणु
द्दाने । जहा ते दिया-नोए, एवं से

सिस्ता दिया य राजो य अणुपुञ्चेण वाइय—ति वेमि ॥

६-४

(१) एवं ते 'सिस्ता दिया य राओ य अणुपुव्येण वाइया' तेहि महावीरेहि पत्रा-
णमन्तेहि, तेस्त्रितिए पञ्चां उवलब्धम् हिच्चा उत्सर्वं कारुसिं च समाह्यन्ति, 'वसिता ब्रह्म-
चेर्ति' आण 'तं नो' ते मन्त्रमाणा आधायं तु सोच्चा नित्यम् 'समग्रुजा जीवित्सामो'
एगे निक्षम्म ते

असंभवन्ता विद्वद्यमाणा 5
कामेहि गिद्धा अज्ञोववत्ता
समाहिमाधायमशोत्यन्ता
सत्यारमेव फलतं वयन्ति ।
सीलमन्ता उवसन्ता संखाऽरैयमाणा
'असीला' अणुवयमाणस्त विद्या मन्दस्त बालिया ।

नियद्वमाणा वे'गे आयार-गोयरमाहित्यन्तिः

नाण-ऋष्टा दंसण-लूसिणो नममाणा एगे जीवियं विष्परिणामेन्ति;
पुढा वे'गे नियद्वन्ति जीवियसेव कारणा ।

निवलन्तं पि तेर्स दुष्टिक्खन्तं भवत् । (२) 'बाला-'वयचिण्डजा हु ते नरा;
'पुणो-पुणो जाई पण्वेन्ति' । 16

अहे संमवन्ता विद्यायमाणा
"अहमंसीति" विडक्से, उदासीणे 'फलतं वयन्ति' 'पलियप्पत्तन्ये अदु वा पान्ये
अतहेहि तं मेहावी जाणेज्जरा थम्ये। अहमट्ठी "तुमं सि नाम बाले", आरम्भट्ठी अणुवयमाणे:
"हण पाणे !" घायमीणे हणओ यावि समग्रुजाणमीणे:

"घोरे घमे चदीरिण !"

उवेहइ ण अणाणाए, एस विसणे वितण्डे वियाहिए-ति वेमि ।

(३) 'किमणे भो जणेण करिस्तामि ?'

ति मन्त्रमाणा एवं पे'गे विद्या ।

मायरं पियरं हेच्चा नायओ य परिगाहं

धीरायमाणे समुद्गाए

25

अथिहिते सुब्बण्ड दन्ते पास् दीणे उपद्वै पडिवयमाणे ।

वसुद्गु झायहा झण्ड लसगा भवान्ति ।

अहमेगेति सिलोए पावण भवदः "से समण-विभन्ते, से समण-विभन्ते !" पासहेगे तमन्त्रागार्दहि अतमन्त्रागार्द, नममाणेहि अनममाणे, विरणहि अविरण,
दविणहि अदविण । अभिसमेच्चा पण्डिए भेहावी 80

"निडियहु धीरे आगमेणं सया परकमेज्जाति-ति वेमि ॥

६-५

(१) से गिहेसु वा गिहन्तरेसु वा गामेसु वा गामन्तरेसु वा नगरेसु वा नगरन्तरेसु

वा जणवएसु वा जणवयन्तरेसु वा सन्ते'गदया 'जणा लूसगा भवन्ति, ' अदु वा इष्ट
कुसन्ति ते फासे 'पुढो वीरो'हियासए' ।

(२) ओए समिय-दंसणे

- ५ पाईं पडीं दाहिण लदीं
दयं लोगस्त जाणिता

आइकसे विमए किटे वेयवी;

से उडिएसु वा अणुडिएसु वा सुसुसमागेसु पवेयए (३) सर्वत विरई उवसंगे निवार
सोयं अजजवियं मदवियं लाघवियं अणइन्चतियं; सब्वेसिं पाणाणं सेव्वेसिं भूयाणं सब्वेसिं वीवाण
सब्वेसिं सताणं अणुवीइ भिक्खु-धम्ममादक्षेजज्ञा । (४) अणुवीइ भिक्खु-धम्ममा,
१०माणे नो अताणं आसाएज्ञा नो परं आसाएज्ञा, नो अन्नाइं पाणाइं भूयाइं जीवाइं साण
आसाएज्ञा : से अणासायए अणासायमीणे ।

वज्ञासाणाणं पाणाणं

भूयाणं जीवाणं सताणं ' जहा से दीवे असंदीणे ' एवं

- १५ (५) एवं से उडिए ठियप्पा से भवइ सरणं महा-मुणी ।

अनिह अचले चले अवहिन्नेसे परिब्बए ।
संखाय पेतलं धमं दिडिमं परिणिवुडे ।
तम्हा संगं ति पासदा ।

- २० गन्थेहि गदिया नरा, विसण्णा काम-विष्णिया ।
तम्हा ल्हहाओ नो परिवित्तसेज्ञा, जसिस्मै आरम्मा सब्वाओ सब्वयाए सुपरिलाया
भवन्ति, जोसिमे ल्हसिणो नो परिवित्तसन्ति । से बन्ता कोइं च माणं च मायं च

- २५ (६) कायस्त विशोवाए एस तंगाम-सीसे वियाहिए—ति बोगे ।
से हु पारंगमे मुणी ।

जविदम्ममाणे कलगावयहुई
कालोवणीए क्लेज्ज कालं जाव सरीर-भेबो—ति बेमि ॥

' महापरिना ' नाम सप्तममध्ययनं विनष्टमिति
प्राचीनः प्रवादः श्रूयते ।

वि मो हो

८-१

(१) से वेमि : समणुजस्त वा असमणुजस्त वा असं वा पाणं वा साइर्म वा साइर्म वा वत्यं वा पटिगार्ह वा कम्बलं वा पाय-पुष्ट्यं वा नो पाएज्जा नो भिमन्तेज्जा, नो कुञ्ज्जा वेयावदियं परं आदायमीणे—ति वेमि ।

(२) धुंयं चेदं जापेऽज्ञा असं वा जाव पाय-पुष्ट्यं वा लभिय नो लभिय, नुमुष्टिय नो मुष्टिय—पन्थं विवरूण विरक्षम् विमत्तं धर्मं शोसैमाणे समेमाणे पाएज्जा निम-५ न्तर्ज्जा, कुञ्ज्जा वेयावदियं परं अणादायमीणे—ति वेमि ।

(३) इहमेगोत्सिं आयार-गोयरे नो मुनिसन्ते भवइ । ते इह आरम्भही, अणुवयमाणाः : “ हण पाणे । ” पायमीणा हणओ यावि समणुजाणमीणा, अदु वा अदिग्रामाइवन्ति अदु वा वायाओ विरज्जन्ति, तं-ज्ञाहः—अत्यि लोए, नविय लोप; धुवे लोए, अधुवे लोप; सारए लोप, अणाइए लोप; स-पञ्जवसिए लोए, अपञ्जवसिए लोप; ‘ सुकडे ’ ति वा ‘ दुकडे ’ १० ति वा, ‘ कल्डाणे ’ ति वा ‘ पावए ’ ति वा, ‘ साहु ’ ति वा ‘ असाहु ’ ति वा, ‘ सिद्धि ’ ति वा ‘ असिद्धि ’ ति वा, ‘ निरए ’ ति वा ‘ अनिरए ’ ति वा । बमिण विष्पदिवज्ञा मामगं धर्मं पश्वेमाणाः पत्य वि लागेह ‘ अक्षस्मात् । । एवं तोसि नो मुय-क्षाए नो मुपन्नते धर्मे भवइ—से जहेर्ये भगवया पवेइयं आमु-पश्वेणं जाणया पास्या—अदु वा गुरुं वओ-गोयरस्तु—ति वेमि ।

(४) सब्बत्य सम्मयं पावं; तमेव उवाइकम् एस महं विवेगे वियाहिए ।

गामे वा अदु वा रणे

नेव गामे नेव रणे

धर्ममायाणह पवेइयं माहगेण मर्दमया

जामा तिणिं उदाहिया, लेमु इमे आरिया सम्बुद्धमाणा समुद्धिया । २०

जे निन्युदा पवेहिं कम्भेहिं अनियाणा ते वियाहिया ।

उहुं अहं तिरियं दिसासु

सब्बथो सब्बावन्ती च णं पदिकं लविहिं कम्भ-समारम्भेण—तं परिकाय मेहावी नेव सयं पएहिं काएहिं दण्डं समारम्भेज्जा, नेत्रं ज्ञेहिं एण्डहिं काएहिं दण्डं समारम्भावेज्जा, नेत्रं एण्डहिं काएहिं दण्डं समारम्भन्ते वि समणुजाणेज्जा । जे वं ज्ञेहिं एण्डहिं काएहिं दण्डं समारम्भन्ति, तेसि पि वयं २५ लज्जामो । तं परिकाय मेहावी तं वा दण्डं अक्षं वा दण्ड—

नो दण्ड-भी दण्डं समारम्भेज्जासि—ति वेमि ॥

८-२

(१) से भिक्षु परकमेज्ज वा चिह्नेज्ज वा निसिष्डज वा तुयट्टेज्ज वा शुसाणसि वा मुकागारसि वा गिरिन्द्रुहसि वा रुक्तमूलांसि वा कुम्भारायपणांसि वा तुरत्या वा । काहीचि विह-

रमाणं तं भिक्खुं उवसंकमितु गाहावई वृया:-“ आउसन्तो समणा । अहं खलु तथं अद्वाए
असरं वा ४ वर्थं वा ४ पाणार्ण ४ समारठम् समुद्दिस्त कीयं पामिधं अच्छेऽब्रं अनिवृत्तं
अनिवृत्तं आहु चेष्टि, आवसं ह वा समुस्तिणामि, से मुञ्जह वसद, (२) आउसन्तो समणा ॥”
भिक्खुं तं गाहावई समणं सवयं पदियाइखेः—“ आउसन्तो गाहावई । नो खलु ते वयं
६ आदामि, नो खलु ते वयं परिजाणामि, जो तुमं मम अद्वाए असरं वा ४ वर्थं वा ४ पाणार्ण
४ समारठम्.... आहु चेष्टि, आवसं ह वा समुस्तिणामि । से विरजो, आउसो, गाहावई
एयस्ताकरणयाए ॥ ” ।

(३) से भिक्खुं परकमेज वा जाच हुरथा वा गाहावई आयगयाए वेहाए
असरं.... आहु चेष्टि, आवसं ह वा समुस्तिणाइ, भिक्खुं तं परिधासेतः । तं च भिक्खुं जाणेऽन्ना
१० सह-सम्मुद्दयाए परवागरणेण अनेतिं वा अनिए सोचा : ‘ अयं खलु गाहावई मम अद्वाए
असरं.... समुस्तिणाइ ॥ ’ । तं च भिक्खुं पदिलेहाए आगमेता आणवेज्ञा अणसेवणाए—ति बेमि ।

(४) भिक्खुं च खलु पुट्ठा वा अपुट्ठा वा—जे इमे आहय गन्था फुसान्ति: “ से-हन्ता,
हणह सणह छिन्दह ददह पयह आळम्पह विलुम्पह सहस-फारेह विष्परासुसह ॥ ” से फारे
‘ पुडे वीरो अहियासए ॥ ।

१५ अदु वा आयार-गोयरं आइसे तकिया णमणेलिसं,
अदु वा वह-नुरीपे

गोयरस्स अणुपुव्वेणं समं पदिलेहाए आय-गुते ।
‘ बुद्देहे’यं पवेश्यं ।

२० स समणुने असमणनस्त असरं वा....(या २७, १-३.).... परं आदायमीणाए—ति बेमि ।
(५) ‘ धम्ममायाणह पवेश्यं माहणेण मईमया ॥ ’ । समणुने समणनस्त असरं
वा....(या २७, १-३. नवरं नो न वणनाये) परं आदायमीणेदि बेमि ॥

८-३

(१) मज्जिमेणं वयसा वि एगे सम्बुद्धमाणा समुद्दिया
सोचा घाई मेहाविणं पदियाणं निसामिया ।
२५ परिगाहावन्ती । सव्वावन्ती च णं लोगंसि—
निह्या दण्डं पाणीहि पायं कमं अकुञ्चमाणे एसमहं अगन्थे वियाहिए ।
(२) ओप लुश्मस्त लेयने उववायं च्वणं च नच्चा;
आहारोवचया देहा परीसह-पर्मंगुरा ।
३० पासदेहे सव्विनिदिएहि परिगिलायमाणीहि ओए; दयं दयइ जे संनिहाण-सत्थस्स
दाले’युद्दार्द अपदिले दुहो ‘ चित्ता नियाइ ।
(३) तं भिक्खुं सीयिकास-परिवेमाण-गायं उवसंकमितु गाहावई वृया:-“ आउस-
नो समणा । नो खलु से गाम-घम्मा उठवाहन्ति ? ” “ आउसन्तो गाहावई । नो खलु मे-

गाम-धमा उब्बाहन्ति, सीय-फासं च नो खलु अहं संचाएमि अहियासेतए । नो खलु मे कप्पह अगणि-कायं उज्जालेतए वा पञ्जालेतए वा, कायं आयवेतए वा पयावेतए वा, अस्त्रेति वा धयणाओ ॥” । सिया से'वं वयन्तरस्स परो अगणि-कायं उज्जालेता कायं आयवेता वा पयावेता वा । तं च भिक्खू पठिलेहाए आत्मेता आजवेता अगासेवणाए—ति वेमि ॥

८-४

(१) जे भिक्खू विहि वथेहि परितुसिए पाय-चउथेहि, तस्स णं नो एवं भवइ : ५
‘ चउथं वथं जाइसामि ।’ से अहेसणिज्जाईं वथाईं जाएज्जा, अहा-परिगहियाईं वथाईं धारेज्जा, नो धोवेज्जा नो रप्ज्जा, नो धोय-स्त्राईं वथाईं धारेज्जा, अपलिउद्धामणे गामन्तरेतु ओमचेलिए । एयं खु वथ्य-धारिस्त सामग्रिये । अहु पुण एवं जाषेज्जा : ‘ उवा-इकन्ते खलु हेमन्ते, गिर्मे पठिवेते, ’ अहा-परितुष्णाईं वथाईं परिटुष्णेज्जा, अहा-परितुष्णाईं वथाईं परिठवेता अदु वा सन्तरुरो अदु वा ओमचेलिए अदु वा एग-सारे अदु वा अचेले 10 लाघवियं आगममीणि तवे से अभिसमचागण भवइ । जहे'यं भगवया पवेश्यं समेव अभिसमेच्चा, सब्बमो सब्बयाए समत्वमेव समभिजाणिया ।

(२) जस्स णं भिक्खुस्त एवं भवइ : ‘ पुढो खलु अहमंसि, नालं अहमंसि सीय-फासं अहियासेतए ॥’—से वसुमं सब्ब-समत्वागय-पक्षाणेण अप्याणेण केह अकरणाए आउहै,
तवस्तिणो हु तं सेयं जं सेगे विहमाश्ट । 15
तथायि तस्स काल-परियाए, से यि तथ्य वियन्त-कारए ।
इच्छेयं विमोहाययणं हिं दुहं खमं निस्सेतं आणुगामिर्वं-ति वेमि ॥

८-५

(१) जे भिक्खू दोहि वथेहि परितुसिए पाय-ताइश्हि, तस्स णं नो एवं भवइ :
ताइयं वथं जाइसामि ।’ से अहेसणिज्जाईं वथाईं जाएज्जा (या ६-१३,
गवरं अदु वा सन्तरुरुरो पाठो वर्जनीयः, तथा धथ्यधारिस्त याने तस्स भिक्खुस्त पाठः वर्जनीयः) 20
.... एवं भवइ : ‘ पुढो अबलो अहमंसि, नालमहमंसि गिहन्तर-संकमणं भिक्खायरियं गम-
णाए, ’ (२) से एवं वयन्तरस्स परो अभिहडे असणे वा ४ आहटु इलएज्जा; से पुच्छामेव
आलोएज्जा : “ आउसन्तो गाहवर्ई । नो खलु मे कप्पह अभिहडे असणे वा ४ भोवए वा
पायए वा अन्ने वा तहप्पगारे ” ।

(३) जस्स णं भिक्खुस्त अयं पाप्ये :—‘ अहं च खलु पठिलतो अपठिलतो, 25
गिलाणो अगिलाणोहि अभिकंख-साहमिश्हहि कीरमाणं वेयावदियं साइजिसामि, अहं चावि
खलु अपठिलतो पठिलतस्स अगिलाणो गिलाणस्स अभिकंख-साहमियस्स कुज्जा वेयावदियं
करणाए : (४) १ आहटु परिन्न आनवसेस्तामि आहटं च साइजिसामि, ‘ आ० प० आ०
आ० च नो सा०, ३आ० प० नो० आ० आ० च सा०, ४आ० ० नो आ० आ० च

नो सा०, '—एवं से अहा-किट्यमेव घमं समभिजाणमाणे सर्वे विरुद्धं सुसमादिय-लेसे ।
तथावि....(या २९, ११.) आणुगामियं-ति वेभि ॥

८-६

(१) जे भिक्खु एगेण वर्त्थेण परिवुसिए पाय-विहण, तस्य नो एवं भवतः
' विहयं वर्त्थं जाहस्ताभि '। से अहेसणिङ्गं वर्त्थं जाएज्ञा(या २९, ६-१३. नवरं
६ जुणाइ वर्त्थाइ स्थाने जुणां वर्त्थं पठनीयः अपाले० गाम० ओम० ; तथा अदु वा सन्तदत्तरे अदु
वा बीमचेलप वर्त्थायीयः, तथैव वर्त्थधारिस्स स्थाने तस्य भिक्खुस्त भणनीयं)....एवं मर्वैः
' एगो अहांसि ; न मे अथिं कोइ न याहमवि कस्तइ,' एवं स एगाणियमेव अप्याणं
समभिजाणेज्ञा ; लाघवियं....(या २९, ११.)....समभिजाणिया ।

(२) से भिक्खु वा भिक्खुणी वा असं वा ४ आहारेमाणे नो वामाओ० हणु-
१० याओ० दाहिणं हणुयं संचरेज्ञा आसाएमाणे, दाहिणाओ० वा हणुमाओ० वामं
हणुयं नो संचरेज्ञा आसाएमाणे । से अणासायमाणे लाघवियं....(या २९, ११.)....
समभिजाणिया ।

(३) जस्त एवं भवतः : ' से गिलामी० च खलु अहं इममिम् सप्तए
१५ इम् सरीरां अणुपुब्वेणं परिविहिष्य, ' से अणुपुब्वेण आहारं संबृहज्ञा, अणुपुब्वेणं आहारं
१५ संबृहेता ' कसाए पयणुए किंचा '

समादियचे फलगावयद्वी

उद्ग्राय भिक्खु अभिभिन्बुद्वच्चे

(४) अणुपविसिरा गामं वा नगरं वा खेडं वा कडबडं वा मदम्बं वा पट्टणं वा
दोण-मुंहं वा आगरं वा आसमं वा सञ्जिवेसं वा निगमं वा रायदाणिं वा तणाइ जाएज्ञा, तणाइ-
२० जाइता से तमायाए० एगन्तमवकमेज्ञा, एगन्तमवकमिता अप्पण्डे अप्प-पाणे अप्प-बीए० अप्प-हरिए०
अप्पोसे अन्तुदण्ड अप्पुतिंग-पणग-दग्ग-महिय-मकटा० सन्ताणाए० पढिलेहिय० २ पमजिय० २ तणाइ
सन्त्येज्ञा, तणाइ सन्त्येता एत्थं वि सप्तए० इतिरियं कुला० ।

(५) ते सच्च : सच्चा-वाई औए० तिष्ठे छिन्न-कहंकहे

आर्हयहु आर्णादेण० चेच्चाण मेउरं कायं

२५ संपिण्डिय विरुद्ध-रुद्धे परीसहोवसगो अहिस्त विस्तम्भणयाए० भेरवमणुचिष्णे० तथावि....
(या २९, ११.).... आणुगामियं'—ति वेभि ॥

८-७

(१) जे भिक्खु अचेले परिवुसिए, तस्य एवं भवतः : ' चाएमि अहं तण-कासं
अहियाहेतुण, सीय- का० अ०, तेओ-का० अ०, दंस-मेसग-का० अ०, एगये० अन्नये० विरुद्ध-
१० रुवे फासे अहियासेतप; हिरिपदच्छायणं च'है नो संचाए० अहियासेतप, ' एवं से कप्यह
३. कविद्वन्धणं पारिषेण० अदु वा तथं परकमन्ते भुज्जो अचेलं तण-कासा० कुशग्नि, सीय- का०
फु०, तेओ-का० फु०, दंसमसग-का० फु०, एगये० अन्नये० विरुद्ध-रुवे फासे अहियासे० ।
अचेले लाघविये....(या २९, ११.)....समभिजाणिया ।

(२) 'जस्त णं मिवखुस्स एवं मवहः : 'अहं च सङ्कु अन्वेति मिवखुणं असणं वा ४ आहु दलरस्तामि आहां च साइजस्तामि, 'जस्त....द० आ० च नो सा०, 'जस्त....नो द० आ० च सा०, 'जस्त....नो द० आ० च नो सा०, (३) अहं च सङ्कु तेण अहारिणे अहेसणिज्जेण अहा-परिमाहिष्ण असणेण वा ४ अभिकंख साहामियस्स कुञ्जा वेयावदियं करणाए, अहं चावि तेण....साहमियदहि कीरमाणे वेयावदियं साइजस्तामि'—५ (३) लाघवियं....(यथा २७, ११.)....समभिजाणिया।

(४) जस्त णं मिवखुस्स एवं मवहः : 'से गिलामी'....(यथा ३०, १२-२२.)....समए कायं च जोगं च इरियं च पच्चक्खाएज्जा। तं च सच्चं....(यथा ३०, ३३-३६.)....आणुगामियं—ति वेपि ॥

८-८

- | | | |
|-----|--|----|
| १. | अणुपुब्वेण विमोहारं जाई धीरा समासज्ज
वसुमन्तो मध्मन्तो सब्ब नच्चा अणेलिसं | 10 |
| २. | दुविहं पि विरचाणं बुद्धा थम्मस्स पाराम
अणुपुब्वीए संखाए कम्मुणाओ तिउद्धृ | |
| ३. | कसाए पथणुए किच्चा अप्पाहारो तिश्वसए;
अह मिवखु गिलाएज्जा आदारस्तेव अनियं, | 15 |
| ४. | जीवियं नामिक्खेज्जा मरणं नो वि परथए;
दुहओ वि न सज्जेज्जा जीविए मरणे तदा। | |
| ५. | मज्जात्थो निजरा-पेही समाहिमणुपालए;
अन्तो बहिं विओसज्ज अज्जात्थं सुद्दमेसए। | |
| ६. | जं किलुवक्कं जाणे आडक्खेमस्तमप्पणो,
तस्तेव अन्तरद्धाए लिप्पं सिक्खेज्ज पणिद्धए। | 20 |
| ७. | गामे वा अदु वा रणे थणिट्लं पदिलेहिया
अप्प-पाणं तु विज्ञाय तणारं सन्धरे मुणी। | |
| ८. | अणाहारो त्रुप्पेज्जां, पुढ्हो तत्थ'हियासए,
नाइवेलं उद्वचरे माणुसेहीं वि पुढ्हं। | 25 |
| ९. | संसप्पणा य जे पाणा जे य उहुमहेचरा
मुञ्जन्ते मंस-सोणीयं न छणे न पमज्जए। | |
| १०. | पाणा देहं विहितन्ति—ठाणाओ न विडवमे,
आसवोहि विचित्रोहि तिप्पमाणो'हियासए। | |
| ११. | गन्धोहि विचित्रोहि बाढ-काळस्स पारए;
पग्गहीयतरं नेयं दवियस्स विधाणओ : | 80 |
| १२. | अर्यं से अवरे धमे नायपुरेण साहिएः | |

- आयार्ग-पडीयारं विजहेज्ञा तिहा-तिहा ।
१३. हरिष्मु न निवज्ञेज्ञा, थण्डलं मुणिया सण,
विक्षेसेज्ञ अणाहारो मुट्ठो तथ्यंहियासए ।
१४. इन्दिएहि गिलायन्तो सभियमाहरे मुणी,
तहावि से अगरहे अचले जे समाहिए ।
- ५ १५. अपक्षमे पदिक्षमे संकुचण पसारए
काय-साहारणद्वाए एथं वा वि अचेयेण ।
१६. परिक्षमे परिक्षिलन्ते अदु वा चिट्ठे अहान्यष्ट,
ठाणेण परिक्षिलन्ते निसिएज्ञा य अन्तसो;
- १० १७. आसणिएलिं सं मरणं इन्दियाणि समीरए ।
कोला'वासं समासज्ज वितहं पादुरेसए,
१८. जओ वज्जं समुप्पज्जे न तथ्य अवलम्बण,
तओ उक्षसें अप्याणं, सूबे फासेहियासए ।
१९. अयं चायतरे सिया: जो एवं अणुपालणः
सञ्चराण्य-स्त्रियेवि लाणारज्ञो न विद्वद्भयेः
- १५ २०. अयं से उत्तमे घम्मे पुब्दुष्णाणस्त पागहे ।
अचिरं पदिलेहिता विहरे चिट्ठो माहणे,
२१. अचिरं त्तु समासज्ज ठावए तथ्य अप्पर्णं,
वोसिरे सब्बसो कायं: 'न मे देहे परीसहा' ।
- २० २२. जावज्जीवं परीसहा रवसग्गा य संखाय
संतुडे देह-भेयाए इति पन्ने'हियासए ।
२३. भेवरेसु न रज्जेज्ञा कामेसु बहुरेसु वि,
इच्छा-कोमं न सेवेज्ञा धुयं वणां संपर्हिया,
२४. 'सासदहि' निमन्त्रेज्ञा—: दिव्बं मायं न सहे ।
तं पदिवुज्जत माहणे सब्बं नूसं विहृणिया ।
२५. सब्बहेहि अमुचिट्ठए आउ-कालस्त पारए;
तिइक्षतं परमं नच्चा विमोहनयरं हियं—ति वेमि ॥

उ व हा ण सु यं

९-१

१. अहा-सुयं विस्तामि नहा से समणे भगवं उद्घाय
संखाएँ तंसि हेमन्ते अहुणा-पञ्चाशए रीत्या ।
२. 'नो वेदि'मेण क्षेत्रेण पीहिस्तामि तंसि हेमन्ते—'
से पारेण आवक्षाए, एर्य खु अणुधमिर्य तस्त ।
३. चत्तारि साहिए मासे बहवे पाण-जात्यागम्म
अभिरुद्धा कायं विहिस्तु, आरुसियाणं तथ्य हिंसिमु ।
४. संवच्छरं साहियं मासं लं न रिका'सि वत्थनं भगवं,
अचेलए तओ चाई तं वोसज्ज वत्थमणगारे ।
५. अदु पोरिसि तिरिय-मिर्ति चक्षुमासउ अन्तसो ज्ञाइ;
अह चक्षु-भीय-साहिया ते "हन्ता हन्ता" बहवे कर्दिमु ।
६. सयणोहि वीश्वमिस्तेहि इत्यिजो तथ्य से परिजाया;
सागारियं न से सेवे, इति से सयं पवेसिया ज्ञाइ ।
७. जे के'हमे अगारत्या, भीसी-भावं पद्धाय से ज्ञाइ
पुढो वि नामिमातिमु, गच्छर नादवत्तर्ह अञ्जू ।
८. जो मुक्रमेगेसिः नापिभासे अभिवायमीणे,
हय-पुञ्चों तथ्य दण्डेहि, लसियपुञ्चों अण्प-पुण्णोहि ।
९. करुसारं दुष्टिक्षत्तारं अदयवे मुणी परक्षममाणे
आधाय-नटु-गीयारं दण्ड-जुञ्जारं मुड्हि जुञ्जारं
१०. गढिए मिहुं-कहायु समयमि नाद-मुण विसोएं अहकर्तृ;
पद्यारं सो उरालारं गच्छर नायपुरे असरणाए ।
११. अवि साहिए दुवे वासे सीओदें अमोच्चा निक्षन्ते;
एगत्तनाए पिहियवे से अभिक्षाय-दंसणे सन्ते ।
१२. पुढविं च वाऽ-कायं च तेऽ कायं च वाऽ-काये च
पणगारं वीय-हरियारं तस्क-कायं च सवहो नच्चा
१३. 'पद्यारं सतिर' पदिलेहे 'नितमन्तारं' से अभिक्षाय
परिविज्ञयाण विहरित्या इति संखाएँ से महावर्ते:
१४. 'अदु थावरा य तस्ताए तस्तीवा य थावरचाए,
अदु सञ्जजोणिया सत्ता, कम्मुणा कपिया पुढो बाला' ।

१५. भगवं च एवमन्नोतीः ‘ सोदिहित हु लुप्त्वै बले ’ ;
कर्मं च सब्बसो नच्चा तं पदियाइकसे पावं भगवं ।
१६. दुविहं समेच्च मेहावी किरियमक्षाय'णेलिस-ज्ञाणी
आयाणसीयमद्वाय-सोयं जोगं च सब्बसो नच्चा
१७. अइवतियमणाडहिं समयक्षोत्ते अकरणयाएः
जरिस'तिथिओ परिवाया सन्देकम्मावहाओं अद्वल्लु ।
१८. अहा-कडं न से सेवे, सब्बसो कम्मुणा य अद्वल्लु
जे किञ्चि पावं, भगवं तं अकुब्बे वियहं भुजित्या ।
१९. नासेवरै य परवथं, पर-पाए वि से न भुजित्या,
परिविज्ञयाण ओमाणं गच्छइ संसदि असरणाए ।
२०. मायवें असण-पाणस्त नाणुगिद्वे रसेमु अपडिन्ने;
अचिं यि नो पमजिज्ञया, नो वि य कण्ठयए मुणी गायं ।
२१. अप्यं तिरिये पेहाए अप्यं पिहुओ व पेहाए
अप्यं बुहए पदिभाणी पन्थ-येही चरे जयमाणे ।
२२. तिसिरंसि अदु-पडिवक्षे तं वोसउज वत्थमणगरे
पसोरेतु वाहूं परफक्षे नो अवलम्बियाण सन्धंसि ।
२३. एस विही अणुकन्तो माहणेण मईमया
वहुसो अपडिक्केण भगवया एवं रीयन्ते—वि वेमि ॥

९-२

१. चरियासणाईं सेजजाओ एगद्याओं जाओं बुद्याओ,
आइख लाई सयणासणाईं जाई सेविय से महा-वीरे ।
२. आवेत्तन-समा-पवासु पणिय-सालासु एगया वासो
अदु वा पलिय-हाणेसु पलाल-पुज्जेसु एगया वासो ।
३. आगन्तरे आरामामरे नगरे वि एगया वासो,
सुसारें सुन्नगरे वां रुक्ख-मूले वि एगया वासो ।
४. एप्हिं मुणी सयणेहि समणे आसि पत्तेलस वासे,
रारंदियं यि जयमाणे अप्यमरे समाहित शाइ;
५. निहं यि नो पगामाए सेवह य भगवं उद्घाए;
जागावहै य अप्पाण, ईसि साह्यासी अपडिन्ने ।
६. समुञ्ज्ञाणें पुनरावि आसिसु भगवं उद्घाए
निक्खम्भ एगया राओ वहि चंकमिया मुहुत्तागं ।
७. सयणेहि तस्तुवसग्गा भीमा आसी अगोग-रुया यः
संसप्तगा य जे पाणा अदु वा पवित्रणो उवचरन्ति ।
८. अदु कुचरा उवचरन्ति गाम-रुखा य सर्विन्द्रध्या य,

- अदु गामिया उवसग्गा : इथी एगइया पुरितो या ।
९. इह-लोहाई पर-लोहाई भीमाई अणेग-रुवाई,
अवि सुविभ-दुविभ-गमधाई सहाई अणेग-रुवाई
१०. अहियासए सया समिए कासाई विल्य-रुवाई
अरई रई च अभिमूय रीयई माहणे अबहु-वाई ।
११. सयणोहिं तथ पुच्छतु एग-चरा वि एगया राओ,
अब्बाहिए कसाइत्त्वा; पेहमाणे समाहिं अपदिने ।
१२. “ अयमन्तरसिः को एथं ? ” “ अहमस्ति ” ति “ मिक्कु ” आद्दु
अयमुत्तमे सेँ धम्मे : तुसिणीऐँ स कसाइए शाई ।
१३. तंसि प्पेगे पवेन्नित सिसिरे मारुए पवायन्ते
तंसि प्पेगे अणगारा हिमवाए निवायमेसम्भिः
१४. ‘ संघाडीओ पविसिस्तामो, पहा य समादहमाणा
पिहिया वा सक्खामो; अदुक्खं हिमग-संकासा । ’
१५. तंसि भगवं अपदिने अहेवियडे अहियासए दविए,
निक्खम्म एगया राओ चाएह भगवं समियाए ।
१६. एस विही अणुकन्तो माहणे मईमया
नहुतो अपदिनेण भगवया एवं रीदन्ते - ति वेमि ॥

९-३

१. सण-फास सीय-फासे य तेओ-फासे य दंस-मसए य
अहियासए सया समिए कासाई विल्य-रुवाई ।
२. अह दुश्चर-लाढ अचारी वज्ज-भूमि च सुव्वम-मूर्मि च,
पन्तं सेज्जं सेविसु आसणगाई चेव पन्ताई ।
३. लाढेहि ससुवसग्गा बहवेः जाणवया लसिसु,
अह लुक्ख-देसिए भचे, कुकुरा तथ हिसिसु निवासु ।
४. अप्पे जणे निवारेह लूसणए सुणए दसमाणे,
‘ छुच्छुकू ’ कारेन्ति थाहन्तु “ समनं कुकुरा वसन्तु ” ति ।
५. एलिक्खए जणे भुज्जो बहवे वज्ज-भूमि फहसासी,
लहिं गहाय नालीयं समणा तथ एव विहरिसु;
६. एवं पि तथ विहरत्ता पुह-पुव्वा अहेसि सुणएहि,
संदुश्चमाणा सुणएहि—दुश्चरगाणि तथ लाढेहि ।
७. निहाय दण्ठं पाणेहि तं कायं वोसउज्जेगणगोर
अह गाम-कण्टण, भगवं ते अहियासए अभिमेच्चा,
‘ नाओ ’ संगाम-ससि व पारए तथ से महावरे ।

अकारादि-शब्दानुक्रमणिका

—४७५—

अ च

अद्वय अतिद्वय
अद्वयाण अतिमान
अद्यतिय अतिश्चित्तक
अद्यात्म अतिपातिक
अद्यात्म अतिपाति
अद्यात्म अतिपाति
अद्यविज्ञ अतिविद्य
अद्यविज्ञ अतिविद्या
अद्यविज्ञ अतिविज्ञ
अद्यवेद अतिवेद
अद्यदि अतियि
अद्यन्द आकन्द
अद्याणी अपि
अद्यार (ए)

अद्या अप्र
अद्युलि —
अद्या अर्चो
अद्यायण आच्छादन
अद्यित असि
अद्यिग अधिन
१ अद्य अद्य,
२ अद्य अर्चे
अद्यव आर्चव
अद्यविया आर्चवता
१ अद्यवत्य अध्यात्म
२ अद्यवत्य अध्यत्त
अद्यहिय अध्यात्मिक
अद्यहृष्प अध्यात्म
अद्य अति
१ अद्य अर्च
२ अद्य अट्टू
अद्यम अट्टम
अद्या अर्चता

१ अद्यिण० अर्थिन्,
१ अद्यिण अर्थिन्
अद्यिय अर्थिक
१ अणु अणु,
२ अणु अनु
अणुगामं अनुगामम्
अणुगामिय अनुग्रामिक
अणुद्विण० अनुस्थायिन्
अणुद्विण अनुष्ठान
अणुद्विसा अनुद्विश
अणुघरिमय अनुघर्मिक
अणुपस्तिण० अनुर्वासिन्
अणुपुद्व अनुपूर्व
अणुवसु अनुवसु
अणुवीर अनुवीर
अणुसंवेयण अनुसंवेदन
अण्डय अण्डज
अच्छण० आरम्भ
अच्छत्त आरम्भ
अच्छत्ता आरम्भा,-आरम्भाण
अत्य अर्च
अत्यिण० अर्थिन्
अदु यदु उ
अदु या यदु उ वा,—यदि वा,
यदु
१ अद्य अवन्,
२ अद्य-अर्ध
अन्तराह्य आन्तरायिक
अन्तसो अन्तसः
अन्तिय अन्तिक
अन्तो अन्तर्
अन्धस अन्धव
अन्ध अन्ध

अन्धत्य अन्धप्र
अन्धयर अन्धतर्
अन्धां अन्धा
अन्देसिय अन्देसिक
अण्ण अल्प
अप्पग आरम्भ
अप्पण० आरम्भ
अप्पंगण आभ्यङ्ग,-आभ्यङ्गन
अभिताव अभिताप
अभिवाय आभिवात
अभिसंकिण० आभिसाहिक्षन्
अभिसेय अभिसेक
अमरायह अमरायत (अमर इवा-
धरति)
अभिल आम्ल
अयं (सर्वनाम) अयं, आणेय, अ-
स्य, अस्ति
अरहन्त० अर्हत्
अरिद्व अर्ह
अरिद्व अर्हति
अलद्वग अलवधक
अर्द्व अवाऽन्तु
अयच्छय अपचयिक
अयम हीन
अयमारिय अपस्मारिक
अययडि अवतरित
अधर अपर
अयस्सकिण० अपश्चित्त
अवि आपे
अस् (घातु) अंसि, अरिय, अन्ति,
सिया, असिया, आसि, सन्त, अणु-
सिया

असण अशन	आणुग्रहिमय	आनुधार्भिक	आदृघ (आदृष्ट)
आहू (घातु)	आहू, उयाहू, आहूष	आप (घातु)	आहूरण —
१ अहू अथ		पत्, भपत्, पृष्ठ	आहाकड मयाहूत
२ अहू अवस्		आम अपक	आहार —
अहूं (उर्व०) अहूं, मे, मए, मम,	शाय,-या	आत्मन्	आहारग आहारक
महूं, मे	आयग	आत्मक	इ (घातु) एन्टि, उवेइ, एचा, अ-
अहो या	आयंक	आत्मत्व	मेइ, अहैय; समेइ, समिय, समेचा;
अद्विय अधिक	आयत्त	आत्मव	अभिसमेचा
अहुणा अधुना	आयण	आत्मतन	इओ इत्तु
अहै अधै	आयरिय	आत्मार्थ	इच्छ० इति (इच्छाप=इत्यं)
अहो अवस्	आयथन्त०	आत्मवत्	इच्छा —
१ अहो अहू	आयण	आदान	इत० (एन) इदमर्थक
२ अहो (आध्येय)	आयार	आदार	इति (इच्छ०)
आइ आदि	आरम्भ	(पापजनक प्राप्ति)	इत्तरिय } इत्वरक
आह॒ अदिक	आराम	—	इत्तिरिय } खिका
आईय आदिक,-आ अतीत	आरिय	आर्थ,-आत्मार्थ	इत्यी खी
१ आउ आपस्	आलौह्य	आलैकिक	इन्द्रिय इत्रिय
२ आउ आयुस्	आलुम्प	—	इम (उर्वसाम) इमं, इमा, इमेण,
आउटी आकुटी	आलौभिण०	आलौभिन्	इमसु, इममि, इमे, इमाओ
आउय आयुक्त	आयकहा	यावक्त्या	इय इति
आउर आतुर	आयट	आवर्त	इयर इतर
आउरिय आतुरक	आयन्त०	आवर्त्	इयाणि इतानिम्
आउसन्त० आयुधन्त्	आयसद	आवसद	इरिया ईर्या
आएस आवेश	आयास	—	इव, य इवर्पक
आपसिण० आरेषिण्	आवेसण	आवेशन (शून्यगृह)	१ इप (घातु) एसे, एसन्ति, एसए,
आकेचिण० आहाडिण्	आस् (घातु)	आसुं, आसिं,	एसिया, एसिया; अप्रेयान्ति, एक्सि-
आकेवलिय आखेलिक	आसीण, उदासीण	आसिं,	न्ति; पातुरेसए, पातुदुएसए
आगइ आगति	आस	आत्राश (ग्रातारादि)	२ इप (घातु) इच्छासि, इच्छाव-
आगन्तार आगद्वा यावा आगडा	आसंसा	आसंसा	निच्छय
या यत्र तिपुन्ति (घायाया)	आसण	आसन	इसि कवि
आगमण आगमन	आसणन	आसनक	इह,-(है) इहर्पक
आगमिस्स आगमिय	आसम	आभ्रम	ईह (घातु) उवेहद, उवेह, उवे-
आगर आकर	आसय	आश्रव	हाइ, उवेहमाण; अगुवें० अगुवे-
आगस आक्ष	आसा	आशा	हाए, उवेहा; समुद्रेहमाण, समुद्रे-
आग्वेत्तर आश्वापयितृक	आसाय	आसाद	हमाण, पेहमाण, • भीज; पेहाए,
आणन्द आनन्द	आसु	आशु	हेयेहाए-पीरहाए, हेयेहिया
आणा आज्ञा	आसेवणा	आसेवना	ईरय (घातु) ईरिय, उर्दिरिय, य-
आणुग्रामिय आनुग्रामिक	आसेवण्या	आसेवनता	मारेप

शर्सि ईष्ट

उ तु

उद्गुह्य उद्गुह्य

उन्धायण उद्धायण

उधा उध्वार्थक

उच्चालहत्तर- } उच्चालविन्

उच्चालहय } उच्चालविक

उच्चावय उच्चावय

उजु-उजु उजु, अजु

उजुकड़-डे कुकड़, कुकड़ारी

उड्हाइ० उत्त्याविन्

उड्हृ उर्ध्व

उण्ड उण्ड

उत्तम —

उत्तर —

उत्तसहत्तर० उत्त्रासविन्

उर्चिंग —

उद उद्धार्थक

उद्धय उद्ध

उदीप उदीचीन

उद्वाहत्तर० } उद्वय-विन्

उद्वेच्छ० } उद्वय-विन्

उद्देश उद्देश

उग्मि उग्मि

उभय —

उम्मग्ना उम्मग्ना

उम्मुग्ना } उम्मग्ना

उम्मज्जा } उम्मज्जा

उम्मुज्जा } उम्मज्जा

उयर उयर

उयरिय० उयरिन्

उयाहु उयाहो

उर उर्स

टराल उदार

उद्वक्षम उपकम

उद्वग्नरण उद्वग्नरण

उद्वहय उद्वयिक

उवचय उपचय

उयर उयरि

उयराय उपराम

उ (धो) वयाद्य औपादि(वि)ह

उयवाय उपरात

उयस्त (ध्य) रग उपरांगे

उयसन्ति उपरान्ति

उयलम उपराम

उयद्वाण उपराम

उयद्विदि उपरामि

उयद्विय उपरिक

उयाय उपराय

उयादि उपराधि

उयेहा उपेष्ठा

उय्वेग उपेगा

उसणिच्च उल्लाय

उसिण उपग

ऊर —

ओ (धातु) उपराध

ए— (सर्वनाम) एहि

एकक एक

एग (उलेग) एक (उलेक)

एग्गह्य एकत्रिक

एग्गओ एकत्र

एग्गत्त एकत्र

एग्गर एकत्र

एग्गया एकदा

एग्गानिण० एकादिन्

एग्गाविय

एज उयु

एण, इण (सर्व०) एन-एण, इण

एत्य (ध्य) अव

एय (सर्व०) एतद्येक—एय, ए-

याओ, एयस्त, ए, एयां, एयानि

एएहि, एएहु

एयावन्त० एयावन्त०

एलिक्यग्नि ईशक

एलिस (अगेलि०) ईश(भनी०)

एय, ए एवार्थक

एवं एवमर्थक

एस एव

एसग एक

एसणा एकगा

एसिण० एनिन्

एह एप

ओ वाक्यार्थणार्थह

ओगगह अवगह

ओड ओउ

ओम अवम-हीन

ओमाण अवमान

ओय ओज

ओयण ओन

ओयरिया अंदर्य

ओसा अवदया

ओव्यार्थ औपादि(वि)ह

ओद ओप

ओहाण अवधान

क (सर्वनाम) —

के, को, का, कि,

के, अहमान, कंसि, केद, कोइ,

किचि, आक्षिण, कंचण, कस्सी,

क्षिरिनि, केइ (यहु०), केय

कओ कृत्तु

कम्बल्ड, -०ट ५५३

कंस्ता काशा

कंसिण० कालिन०

कज्ज जार्य

कटु काषु

कट्ट, -०ट शृत

कदि कटि

कड्डु उद्गुह

कण्टग कण्टक

कण्डग काङडक

कण्डूय (धातु) कण्डूय

कण्ण

कर्त्त्य कुव

कर्त्त्यां कुवित्त

कर्य (धातु) कहिय, परिकहिय

कन्ध स्वन्ध	कासंकस कपंदय	करिस्थामो, छरन्त, अकुर्णन्,
करण करा	कार्दीय कथिक	कुवमाण; मठ, थकड़, दुर्क, सुकर,
कर्वड़ कर्वट	किं —	कय, किरिय, कायव, अकरणित्य,
कर्म्म (धातु) अविकल्पमाण	किहू कित्ता	अकरणीय; कट, किच्चा; कच्छ, किल्ड,
कर्म्म —	किण्ड कृष्ण	कउभन्ति, कीरन्त, पीरमाण, कोरे
कर्म्म कर्म्म	किरति (अकिं) कीर्ति (अकीं)	कोरेन्ति, कारवे, कोरेया, कारेश्वर्म,
कर्य (विक्रय) कय (विक्रय)	किमण हृषण	काराविस्तं, काराविस्तुं, कारावेसं;
कर्यघर कवर	किरिया किया	पकरन्ति, पकोन्ति, पकुव्वइ, पकु-
कर्याइ कदाचित्	किय (वि) ण हृषण	व्वमाण; पगड़, संयाय
कर, री —	किस इत्ता	३ ए (धातु) उवक्षरितु
करण —	किह कया	कुश (..) कसेइ
करण्या करणा	कीर्तियू (धातु) किट्ट, किंडे	कुप् (..) उक्षेह, उक्षिस्तामि,
कलह —	कुओ शत्	विउक्षेह, कुशसिस्तामि, अवकस्त्यणं
कल्पण करण	कुपकुय कौकृत	कुप् (धातु) कण्ह, पक्ष्येह, कण्हे,
कल्पण कल्पण	कुपकुर —	कैविया; पक्ष्यवान्ति, पक्ष्येन्ति
कवाल कपाल	कुच (धातु) अपलिंदधमाण, सं-	केयण केतन
कवाय (धातु) क्याहस्या	कुदृ, संकुचिय, संकुचमाण	कोहृ कोड
क्यायय् „ क्याहय, संक्याहय	कुचर चोरो पारदारिया य (व्याहसा)	कोट्टिण् — } कुठिन्
क्याहए	कुट्ट (धातु) आदेह, विउक्षेति	कोल (धुणा, उदेहिया या; व्याहसा)
कसाइण् क्यायिन्	कुट्टिण् कुठिन्	कोधिय कोनिद
कसाय क्याय	कुणिय कुणिक	कोदृ कोष
कसायय क्यायक	कुण्ठस्त कुण्ठरव	कन्द (धातु) कन्दह, कन्दितु
कहंकदा क्यंक्या	कुण्डल —	क्रस् (धातु) चंकिता, चंकिय,
कदा क्या	कुन्त —	चंकिमि, उक्षाहन्त, उक्षाहक्षम्य;
काद क्या	कुन्तग कुन्तक	अभिक्षेम, अभिक्षमाण, अणभिक्षेम,
कांक्ष (धातु) क्षेज्जा, अभिर्भुं कुप् (धातु) कुपन्ति, कुज्जेज्जा	अणभिक्षमाण, अवक्षेज्जा, अव-	
खेज्जा, अवक्षेन्ति, कुम्मार —	कुप्म कूर्म	क्षमिता; अक्षन्त; अणुक्षन्त, विउ-
अणवक्षमाण, क्षेहो	कुम्मास कुम्माय	क्षम; निक्षन्त, दुष्गिक्षन्त, निक्षम्य,
काणत्त काणत्व	कुल —	अभिनिक्षन्त; पद्धिनिक्षमितु; पद्धि-
कार्यीय कायक	कुस उच	द्धमेह, पद्धिकममाण; परक्षेम, परक्ष-
काम —	कुसल कुशल	मेन्त्रा, परक्षेन्त्रायि; परक्षमन्त,
कामेण् कामिन्	कुसील कुशील	परक्षममाण; दुष्गरक्षन्त, विष्परि-
काय —	कूर कूर	कमित्र, विष्पुरिक्षम्य; उक्षसंक्षमन्त,
कायर कातर	१ कू (धातु) कोभि, कोहै, कोन्ति,	उक्षयंक्षमिता, उक्षयंक्षमितु
कार —	करए, कुज्जा, कुम्मह, अक्षेयुं, झी (धातु) किणे, किजानेह, कि-	
कारण —	अद्विस्तुं, अक्षासी, अग्नेः, कुञ्जि-	
कारिण् कारिन्	गन्त, कीय	
काल —	त्या; करिस्तं, करिस्तुमि; करिस्तह, कुध (..) कुग्गे	

कुण् (पातु)	भक्तुठ, भाक्तु	गणिष्ठण् ० गणिठन्	मुण्ड शुष्क
हृषि (,,)	दिलामेयव्य, परिकि-	गन्धं गन्धं	मुण्ड शुष्क
लन्त		—	मुख —
हिंश् (,,)	हिलान्ति, परिकि-	गम्म गम्म	मुख शुष्क
सेवनित		गम् (पातु) गरुदा, गरुदान्ति, मुदा —	मुख शुष्क
दण् (,,)	एगो	गरुदार्जा, गय, गन्तिएः अद्यव्य; गृ (पातु) आदन्ति, आगिता,	मुख शुष्क
सिष् (,,)	निकित्वे, निकित्त-	अणुगरुदान्ति, अणुगरुदानान, अन् अग्नावद	मुख शुष्क
दण्ण दण्ण		गुणगरुदानान; आगममाग, • गीत, गृष् (पातु) गित्वे, गित, गुठ-	मुख शुष्क
दण्ण दण्ण		आगम, आगमेता, आगम्य, एम् • गिद, परिगिम्बह	मुख शुष्क
दण् (पातु)	दण्ड	जागव, असम्, अभिरासदान्य, गोदि घटि	मुख शुष्क
दण्ड	दण्ड	अभिरासम्म; नियदान्ति, विग्य- गोमय —	मुख शुष्क
दण्ड	दण्ड	गम-या पारंगम, दीरंगम	गोय गोप
दण्ड	दण्ड	गमण गमन	गोयर गोचर
दण्ड, दु, हु दण्डंक		गरुदा (अगरदा) गर्दा (अगर्दा)	ग्रह (पातु) गडिय
दण्ड दण्ड		गरुद्य शुष्क	ग्रह ग्रह
दण्ड	दण्ड	गल —	ग्रह ग्रह
दण्ड (पातु)	गिरुए	गल्स (पातु) पग्नभर	ग्रह ग्रह
दण्ड	दिप्र	गवेष „ गवेषिट्या	ग्रह ग्रह
दु दण्ड		गवेसम गवेषक	ग्रह ग्रह
दुलिय दुलिय		गद (अगरद) गद (अगरद)	ग्रह ग्रह
दुहुरा-दुहुरि दुहुर		गाम प्राम	ग्रह ग्रह
देह देह		गामिण्० गामिन्	ग्रह ग्रह
देह देह		गामिय प्रामिक	ग्रह ग्रह
देहम देहम		गाय ग्राम	ग्रह ग्रह
देह देह		गात अगात	ग्रह ग्रह
देहम देहम, -देहम		गाह (पातु) अगिणाह	ग्रह ग्रह
देहा (पातु)	भक्ताह, भग्याह, गाद्य (गाहिया) प्राह (माहिया)	ग्राण ग्राण	ग्रह ग्रह
देहा, भाइक्षामो, भाइक्षह, गाद्याह एहति		ग्रात्यू (पातु) पायद, पायम	ग्रह ग्रह
भाइक्षन्ति, भाइक्षे, भाइक्षोउज्जा, गिरि घटि		दीपमीण	ग्रह ग्रह
भक्ताति, भाइक्षर, भग्याहसामो, गिरह भूम्य		घास प्राच	ग्रह ग्रह
भाइक्षमाण, भक्ताय, भग्याय, गिरि —		घृष् (पातु) परिपेत्व, परिपेत्व	ग्रह ग्रह
भायाय, भायाय; भद्रायक्षद, गिलासिण- प्रासिन्		घोर —	ग्रह ग्रह
भद्रायक्षदेज्जा; उद्दीय; पृष्ठव. गिलासिणी प्रसिणी			
बखाएउज्जा; पहियाइखो, अख्वा- गिद एह			
दिय, गादिय, विक्षाम, -विक्षाय, गीय गीत			
वियादिय; संविक्षद, संखाए, गीय ग्रीव			
संखाय; पदिसंखाय			
ग यथा पारग रसग			
इ, गति			

म चमत्	चहुं पढ़	जाण यान
यन अवन्	छाण धान	जाणवय जानपद
—	छाण धगन	जाणु जानु
र् (धातु) वेर, वेरउआ, अवारी, छद् (धातु) पलिओरहम, पलि-	पलिओरहम, पलि- वहम, परहम	जाम याम
अणुवेण, उववरन्ति, उववरे, विय-	—	जाय जात
विय, वंचित्ता, अणुमचद	छन्द छन्दा॒	जाया याता
र —	छाया —	जावन्त्, जाय यावन्ह, यावन्ही-
वरियो चर्या	छिद् (धातु) छिद्य, छिन्देव, छिन्दने,	वन्, यावन्ही
वद् (धातु) चौलेमाण, उच्चा-	छिन्दन, छिन्द, छिता॑; वेचिद्यन्दे-	जि (धातु) विद्या, विष्टु
लिय	जा, अओरिद्यम, अच्छे, अच्छेव जिण जिन	जिभा॑ जिधा॑
यल (भचल) —	परिचिद्यन्दिय, पलि॑	जीय (धातु) जीविस्थामो, जी-
चयण (चयन) चयन	झु झुर्-उरुरुक्षरेन्ति॑	रिं, जीविड-फाम
चारण- लानि॑	छतर-ठेठ॑	—
चाय (धातु) निकाय, (निका-१ हेय छेक	—	जीय
य, निकाय, निकाएक्य, नि-२ हेय छेद	—	जीविण॑- जीविन॑
कायला)	ज यथा अण्डज, वोतज	जीधा॑ जिधा॑
चारिण॑- चारिन॑	ज (संवेनमय) जे, (एक-बहु॑) उरुमन्त॑० पुतिमन्त॑०	—
१ चि (धातु) चंसिचियाण॑	जो, जं, जा, जेग, जाए,	झुज्जल॑ युद्ध
२ चि " अणुर्वाह॑ (य)	जस्त, जसि, जाई, जाओ, जेहि,	झुद॑ युद॑
: अणुवेचिय	जेहि, जेमु	झुप् (धातु) झोडेमाण, घोड-
विहा॑ चंथा॑	जेर॑ यदि	सवन्त
वित् (धातु) वेएमि, वेए॒	जयो॑ यनः	ज्ञर् (धातु) ज्ञर॑, ज्ञर॒
वित्त (वनित) —	जंय —	जे॑ " जेरहि, जुणा, परि-
वित्तमन्त् वित्तमन्त्	जण जन	कुणा
वित्तमन्तग "	जणग जनक॑	—
चिन्तमन्त् (धातु) अणुवेचिन्तिय	जणवय जनपद	जोग योग
चिर —	जणवय यव	ओगया॑ योगता॑
झुद॑ झुद॑ (धातु) झुइय (चोइओ)	जन॑, जा (धातु) जायद, जाय, जोगिय योगिक	जोगी॑ योगि॑
चेइ॑ चेइ॑ (खेइ॑)	जनगन्ति, अभिसंजाय	जोद्यय॑ योद्यन
चेयण (अचे॑०) चेतन (अचे॑०)	जन्तु —	झा॑ (धातु) जाणद, जाणेवा, जाण,
चेल (अचे॑०) वज्जार्यक	जन्म —	जाण॑, जाणादि, जाणह, जाणेह;
चेलग, चेलिय, चेलक	जन्म जन्म	अद्रेसी, अद्रेसि, जाणन्त॑० अजा-
चेष्ट (धातु) विगरिचिह्न, परिवे॑	जरा —	णन्त॑०, अयाणन्त॑०, जाणेता॑, जाणि-
चिह्निषु	जराड जरायु	त॑०; नट्चा॑, नट्चाण॑, अणुजाण॑०,
चोर चौर	जहा॑ यथा	अणुजाण॑०, अणुआह॑, अणुना॑०
च्यु॑ (धातु) चुय	जाई॑ जाति	गिधा॑, यान्तुजाण॑०, स॑० जागाइ॑०
—	जाई॑य जातिक	स॑० जाणेवा॑, स॑० जाणमाण॑०
उ पढ	जागर —	—

•माण, अभिजाणह, •शाणह, थ. तण तुण	तिरिष्ठ } तिरिष्य } तिरिष्य
भिशय, समभिजाणिया, स० तत्त्वो ततः	तिविद प्रिविध
जालेज्ञा, स० जाणाहि, स० जाण० १ तत्य तथा	तिदा तिधि
भाण, भवयाणह, भवयाणन्० भा० २ तत्य (भत०) तथ्य (भत०)	तीर -अतीरंगम
आण, आयाण, आयाणह, था० तद-	तु उ इ
पाए, आणवेज्ञा, आणवेज्ञा, तन्- } तदयेरु	तुट इ
धउशायवज्ञ, आणावे०, परिजा० तन्-	—
आभि, परिजाणह; परिजाणन्०, तप० (थानु) आयवेज्ञा, आया-	तुच्छ —
अप०, परिजाय, अप०, सुप०, तु० वई, थोभताव, आयवज्ञ, आयवे०	तुच्छाग तुच्छक
ज्ञायिगव्य, मु० पाए, मु० प्राणा;	तए; पमोवेज्ञा, पयोवेज्ञा, परित-
मुपत्रत, पदवेमो, पमवेह, पम-	ज्ञह, परितप्यमाण, परियावेज्ञ-
वेन्ति; पाडिन्त, अप०; विजाणह,	तुवेम, तुव्वा० न
विजाणन्०, विगा०, अवि०, वि-	न्ति, •वावउज्जन्ति, •यावेन्ति, तुला —
शाय, मुविं०, वियाणिता	•यावए, •याविय, •योदद्वय
जयल (थानु) उज्जालेश्वर, पउज्जा०	त्सोसणीय मूलांक
लेज्ञाए, पउज्जालेश्वा०	तु (थानु) तद्व, तिज्ञ, तारंग०
—	आषह्ण, पइण्ण, आवैण्ण
क्षम्ज्ञा (भाया-लोभेच्छा, व्याख्या)	तेइच्छा चिकित्सा
हायिण-व्यायिन्०	तेउ, तेओ तेज्ञ०
हाण श्यान	तो ब्यत्०
क्षिमिय विमिहू (अवलस्वाही)	त्यज (थानु) बैइ-ब्यह, ब्यमनि०
शूस० (थानु) होसेइ सोसमाण,	चए, चारामे, चाएस्तामो, चयाह०
•माण, सोसिय, हुज्जोसिय	च्छाता, वेश (•ंग), चायमि०
—	चाइ०; *परिव्यान्ति, पारच्चार्द्वा०,
ठाण स्याग	परिक्षव, संचारामि०
डण्ड दण्ड	अस० (थानु) तापन्ति०; परिक०
डाद दाद	तापन्ति०, परिकृत्तवेज्ञा
ए० नूप०	त्यग्यतंश० (थानु) तुयेज्ञा०
ण्हाहणी चायुकी	य स्य यथा-भ्रगारस्य, आषणर्य०
त (सर्वना०) तद्येरु. वै, सौ, स०	छाउमत्थ, भवत्य, मञ्जात्य०
माचगत-दद० यथा तप्त्वोसमाण,	थण स्तन
तदिहीय० देण (-ंग), तम्हा०, त-	थडिल, -०हु स्थणिल
स्तु, तंगि०, तम्मि०, ते०, ताव०, तेहि०,	थावर स्यावर
तेहि०, तेमु०	थावरत्त स्यावरत्त
तद्य० तूत्य०	—
तद्वो ततः	तिष्ठ, तिष्ठत्त, तिष्ठत्तमाण शूल स्थूल
तंस घ्यत्य	तिण्ण ग्रीणि०-तिदि०
तप्त्वा० तक्त०	तिच तिकृत
तंस घ्यत्य	तिय विक
तप्त्वा० तक्त०	तिरिफ्य तिरिकृ
तच्य तत्य०	—
—	दंस० (थानु) दसन्तु, दंसन्तु, द-
—	दन्त्वा०, दसमाण, दंसमाण, देसमाण०

हीन रंग	दिन् (धातु) देविय, समुद्रित, देव	दो दी
हीसव रंडव	पदोंसिय	क्षेणमुह शेषमुख
हीमिहू रंडिल	दिसा दिश	दोल संयाम
हीप रंडह	दि (धातु) इये-दाण, असंदाण; दोल संयाम	धम्म धम्म
हीड़ रंड	संदर संस्त्रिय वा संदर्भिणा	धम्मध धम्मह
हीट, हृष्ट	र्धीय र्धीय	धम्मध धम्मह
हीन —	दोह दोहिं	धम्मधन्त् धम्मधन्त्
ही, हृष्ट	तुम्हस्त् तुःस्त्	धम्मिण्-धम्मिण्
ही —	हुक्षित् तुःस्त्	धा (धातु) हिय, भीहिय, आदाए-
हीतिय दाण	हुक्षित्, हुक्षित्, हुक्षित्	मि, आदायमाण, मीण, आदाय-
हीविय दाण	हुक्षित्	माणाग, अणाड़ा;
हीसम दाण	हुक्षित् तुःस्त्	समाहिय-; निह, निहिय, निहाय,
हीद (धातु) दाण, दाह, दाहा, दाहा, दुक्षित्सम	हुक्षित् तुःस्त्	मुक्षियहिय; परिहित्यागि; पीहि-
ही, क्षमाद्यमाण, दाह, दिस्त्स- दुप्य दिप्य	हुक्षित् तुःस्त्	हित्यामि, पेहेसागि, पिहिय-; सं-
ही	तुप्पित्तिलूहा, तुरूप्य तुप्पित्तिलूहा	चाए, संपर, अमित्यंतु आदा-
ही	तुप्पित्तिलूहा, तुरूप्य तुप्पित्तिलूहा	एमाय
ही (धातु) दाह, देह, दत्तसामि, दैर्यीय	तुप्पित्तिलूहा, तुरूप्य तुप्पित्तिलूहा	धार्म धार्मी
हीलमि, हीलमि, ही- अहत- तुप्पित्ति, तिम् तुरूप्य	तुप्पित्तिलूहा, तुरूप्य तुप्पित्तिलूहा	धारिण् —
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धारिय धारिक
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धाह (धातु) धाह
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धीर —
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धुप, धुप धुप
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धू (धातु) धुवाह, धुवे, धुवे, धु-
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	विहूलिय, चिहू-; तंविहूलिय
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धूपर् तुरूप्य
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धू (धातु) धोवा, धोत्तप, धोत्तर
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धारए
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धी (..) धोवेया, धोय
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	ध्या (..) धात, धाय, निय
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धात् —
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तात् (धातु) आत्यसेल्यमि,
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	धीय-
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	वातर —
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तरिय तर
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तह तुर
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तह तह
हील-; आहतिल, आहत, आह- तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तुरूप्यम् तुरूप्यम् तुरूप्यम्	तह तह

भावारीगत्यस्य

निष्ठा-	निष्ठासूक्ष्म्य-	निष्ठापयेत्	पद्धाण (धृष्ट०) प्रतिष्ठान,
पूर् (धातु) समाज, अवस्थाग, निडाल ललाट	नितिय (अनि०) नित्य (अनि०)	पंतु पंगु	(अप्र०)
नय, अवस्थमाण, उद्घाटमाण, परि- नितिय (अनि०) नित्य (अनि०)	निदा, निदा	पंक्कस दृष्ट्य वक्कस	
जनका, किंविरेगमनित, विनारि- निदेस निदेश	निदेस निदेश	पंक्कालण प्राचालन	
गोपनित, पण्य	नियग -	पंक्किष्टण- पक्षिन	
मस्त्य (धातु) नमासिय	नियह (अनि०) नियत (अनि०)	पंगन्थ प्रपन्थ	
पर -	नियम -	पंगप्प प्रकल्प (धामाचारी =	
परग नरक	नियम	आचार)	
पश्च (धातु) नस्त्र, नास्त्र, वि- नियाग न्याय	नियाण निदान	पंगाम प्रकाम	
पश्चर,	नियर्य -	पंगार प्रकार	
नद नद	निरामगन्ध -	पंगाद प्रपद	
१ नाइ शाति (शातिपुत्र=महा- निरामगन्ध	निरालम्बनया निरालम्बनना	पंच (धातु) पंथ, परिपचमाण	
बार)	निरुद्धाण निरुद्धाण	परिव०	
२ नाइ शाति (शाति-बल)	निरोह निरोष	पंशत्तिम प्रस्त्रकिम	
नाग -	निलाट ललाट	पंधारेसण- प्रस्त्रार्चिन्	
नाण शात	निवाइण- निवाइन	पंचार पंदार	
नाणवन्त्- शानवन्त्	निवाय निवात	पंजव पंवय	
नाणिण्- शानिन्	निवेसण निवेशन	पंजवासिय दृष्ट्य सन् (धातु)	
नामि -	निव्वाण (न०) निव्वाण	पंचग पंचक (शब्द, ह्य, रस, गन्ध, सर्व)	
नाम नामन्	निव्वेय निवेद	पंडण पहन	
नामय नामक	निस्तार निःसार	पंडिकूल प्रतिकूल	
१ नाय शात्	निस्सेपस निःधेयस	पंडिक (पांडियम) प्रत्येक	
२ नाय शात्	निस्सेस (न०) निःशेष	पंडिगाह प्रातेगद	
नायपुत्र शातृपुत्र	निस्सेमिय निःशेषिक	पंडिगाह प्रातेगद	
नालीय नालिक	निद (अनि०) निध (हन् धातु)	पंडिगमाय प्रोधात	
नास नाश	परिगित दमाण, विणहु, विणएता	पंडिगम्याय प्रातेच्छादन	
निकरण (नो निकरण एति, नो नी (धातु) उवर्णीय, मुक्तिम्, विद्विष्ट्यायण प्रातेच्छादन	परिगित दमाण, विणहु, विणएता	पंडिग (अप०) प्रातेश (अप्र०)	
निष्पव्ये कर्तु समर्पयः, व्याहुषा)	नीया नीवा	पंडिगम्य दृष्ट्य पंडिक	
निकरणया निकरणता	नील -	पंडिलेश्वरा प्रतिलेश्वरा (लिष्व धातु)	
१ निष्पाय -	नीसंक निःशङ्क	पंडिगूदणया प्रतिगूदणता	
२ निकाय दृष्ट्य चातु (धातु)	नीसेस दृष्ट्य निसेस	पंडीण प्रतोर्बन	
निकेत (अनि०) -	उद (धातु) पुण्य, विष्णोलेप	पंडीयार प्रतोकार	
निक्षम निक्षम	विपु.	पंडुष्ट दृष्ट्य मत्र् (धातु)	
निगम -	नूम हर्म, माया (अभिनूम अभि-	पंणग पनक	
निगन्थ निर्भन्थ	मुखेन कर्म माया वा)	पंणिय पण्य	
निचय -	नेत्र, नेय नेत्र	पंडिय पंडित	
निष्यग (अनि०) निष्यक (अनि०)	नेत्राण निष्याण	पंत् (धातु) अश्वाएत्ता, अण्डा	
निष्वारा निष्वारा	नो न	वामाण, भावित्य, अप्पैय, वि-	
निजहाइण्- निजायिन्			

१ ई॒, निः॒ह्य; प॒दि॒वप्माण, सं॒य- परिदा॒ परिदा॒	परिदा॒ला॒न परिदा॒ल	पाई॒ज श्री॒चीत
यन्ति	परिदा॒ल	पाउ॒ ग्रादु॒स्
पतेलस (पतेल) प्रत्योदास— पार्वती परियं वा तेरयं वरिते केचि॑ वरिसां॑-पच॑य॒ग श्रेष्ठदर्शने॑ परिमाण —	परिया॒ग (पलि॒०) परिपाक परिमंडल —	पाहियद्ध इष्ट्य॒ पहिक १ पाण पान
क्वर्ण॒, भ्याल्या)	परिमोक्ष इष्ट्य॒ पलिमोक्ष	२ पाण प्राण पाणिण॒- ग्राणिण॒
पत्त पथ	परियट्ट्य॒ परिवर्तन	पामित्य॒ प्रामित्य॒ (पामित्य॒ अंय- रसादु॒चिदप्रमुखाक्ष्म॒, भ्याल्या)
पत्तिय॒ प्रतीति	परियंदण॒ परिवन्दन	१ पाय पात्र
पत्तेय॒ प्रतेक	परियाय॒ पर्वीय॒ (धर्मस्थाल)	२ पाय पाद
पद॒ (भातु॒) आव॒वन्ति, आवा॒ यए॒, परिव॒वर्तनि, समाव॒वा॒, अज्ञोव॒वा॒, पड्ड॒वा॒, समुप्पञ्चनि॒, समुरुञ्जे॒, निव॒वद॒, निव॒वेन्नजा॒, प॒दिव॒वा॒, विण॒विवा॒, संवा॒	परियन्दण॒ (परिय॒०) परिवन्दन पायर॒- प्रात्॒ (यथा प्रातादा॒)	पार॒ — (यथा पारा॒, पारामित॒, पारंगम॒)
प॒दिसो॒ प्रदिश्या॒	परिस्त्र॒व परिवद	पार॒सिया॒ पादस्ता॒
पन्त॒ प्राप्त	परिस्त्र॒द॒ " (पत्तलपुञ्ज)	पालय॒ (भातु॒) पालेमाण, अणु- पालण, पालिय, पालित्या,
पन्थ॒ पन्थन॒ (पथिन॒)	पलास॒ पलास	•पालेन्नाति
पन्न॒ प्रश्ना॒	पछिपाण॒ इष्ट्य॒ परिपाण॒	पाप॒ पाप
पन्ना॒ प्रश्ना॒	पलियाद॒ (नहिर॒) प्रतीय॒ आहे॒ पायगा॒ पापक	पायार॒य प्रायार॒ि
पन्नाण॒ प्रश्नान॒	बर्ण॒ संदोचए॒ देढी॒ भावाए॒- पायार॒य प्रायार॒ि	पायार॒य प्रायार॒ुक
पन्नंग॒ प्रश्नंग॒	पलिमोक्ष या॒ (परि॒०) परिमोक्ष	१ पास॒ पार्खे॒
पन्निह॒ प्रश्न॒ति	पलिय॒ कर्म॒ (पलियद्वाण॒, पलिय॒- प्रगन्य॒-इलादि॒)	२ पास॒ पारा॒
पन्नाई॒- प्रमादिन॒	पर्वंच॒ प्रपथ	पासग॒ पस्यक
पन्नाय॒ प्रमाद	पव्या॒ प्रवा॒	पासणिय॒ प्राप्तिक॒
पन्नुद॒ प्रमुच्च	पव्याय॒ प्रवाद	पासिम॒ दर्शनीय
पन्नोऽय॒ प्रमोद	पश॒ (भातु॒) पासइ॒, पासे॒, पश्च॒, पाए॒,	पासिमन्त॒- (पस्वतीति॒ पस्तिम॒
१ पर्य॒ पर	व्याल्या॒)	पायद॒, पायन्नं-॒, भयाप्तन्त॒-॒, पश्च॒-॒ पिच्छ॒, पिच्छ॒ विच्छ॒
२ पर्य॒ प्रज	पश॒, पाशमाण॒, पाशिय॒, उम्पुण॒-	भाण॒, पाषणमाण॒, पाषिय॒, उम्पुण॒-॒ पिह॒ (भातु॒) विह॒
पन्नण॒ प्रत्यु	स्प॒, स॒-॒ पस्त्र॒, स॒-॒ पासइ॒	स्प॒, स॒-॒ पिह॒ प॒
पन्नुग॒ प्रत्युक	पशु॒ (अप॒०) पशु॒ (अर॒०)	पिह॒ श॒
पन्ना॒ प्रश्ना॒	पशुग॒ (भर॒०) पशुक॒ (अर॒०)	पिह॒ —
पर॒ — (परेण पर॒)	पह॒ पय	पिण्डोलग॒ विण्डोलग॒
परम॒ —	पदेण॒ (प्रदेण॒)	पित्त॒ —
परिमगद॒ (अप॒०) परिगद॒ (अर॒०)	पा॒ (भातु॒) आपित्य॒, आपिवित्या॒, पियर॒-॒ वित॒	पिय॒ (अपिर॒०) अय॒ (अपि॒०)
परिगद्वावन्त॒ परिवर्वन्त॒	पाँड॒, पायए॒, आपिवित्या॒	पीढ॒ (भातु॒) पिह॒, आपिक॒०
परिविवाण॒ (अप॒०) परिविवाण॒		
(अप॒०)		

पीलए, निणीलए	पह	अवशुज्जनित, ओमुज्जमाण, पुरुद,
पीढ़ पीठ	फरसया-०सिया पद्धता	पडिषुद्द; मुपडिषुद्, पडिषुज्ज,
पुच्छ —	१ फल —	संजुज्जमाणा, अमिसंजुद्द
पुछण प्रेष्ठन	२ फल फलक	दुसिमन्त बुधी संबगे-घास्ता
पुज्ज —	फलग "	धोरि वेधि
पुड्डी प्रथिवी	फलत्त फलत्व	दू (धातु) वेभि, दुर्त, दुइ;
पुड्डो श्वरू	फालसिया पालया	दूया
पुण पुन्	फास सर्थी	भर्ही भरिनी
पुणर् "	फुसिय सष्ट	भगवन्त् —
पुणो "	यज्ञहओ वायत्तम्	भज् (धातु) विमवन्ति, विम-
पुण्ण पुण्ण	यन्ध (धातु) यद्	विमत
पुत्र दुत्र	यन्ध —	भज्जा भार्या
पुरओ पुरव्	यन्धण वन्धन	भंजन भजक (भू-ति भूमी,
पुरक्कार पुरक्कार	धंम व्रद्धन्	तीरे जाया भंजगा, भंजगा वृक्षः)
पुरत्यिम पुरत्यिम	धंमवन्त् व्रद्धवन्त्	भण् (धातु) पडिभाणी
पुरा —	यल —	भत्त भक्त
पुराण —	यलि —	भमुद्दा भुवुका
पुरिस पुल	यद्वि वद्विस्	भय —
पुरे पुरू	यद्विया वायाद्	भय
पुलाग पुलक	यद्विरस वद्विरव	भाग —
पुव्व पूर्व	यद्वु —	भायर् भ्रातृ
पुव्वं पूर्व	यद्वुग यहुर्	भाव —
पुव्विं "	यद्वुयर यहुर्	भाष् (धातु) भासामो, भासद, भा-
पुद् (धातु) वेसन्ति, वेसेन्ति,	यद्वुल —	सन्ति; भासेय; अभिमासे, अभि-
वेसेवा, वेसिय	यद्वुसो वहुशस्	भासिदु
पूरि पूरि	यात् (धातु) वज्जमाण, उच्चा-	भि भिद्
पूर्या पूर्न	हन्ति, उव्वाहिज्जमाण	भिड़-भै० भित्तुर
पूर्य (धातु) पुर्वित्तु, पुरित्त-	याल —	भिक्षावायरिया भिक्षाचर्या
स्वामो, दुड़, अपुद़, पडिपुर्वच्चमाण	यालया-०लिया वालता	भिक्षु भित्तु
पूर् (धातु) पुण, पूरत्ता, पूरेत्ता,	याहा याहू	भिक्षुणी भित्तुणी
पडिपुण, संपुण	यार्दि वायम्	भित्ति —
वेत्र प्रेत्र	यादिर्-०दर वाहिर	भिद् (धातु) भित्तद, अन्मे
वेत्र प्रेत्र	यादिरग वाय	भी —
वेसल वेशल	याहु —	भीम —
येहा प्रेश (ई० धातु)	यिरैय, वी० वित्य	भीय भीत
येहिण- प्रेलिन्	१ वीय "	भुज् (धातु) सुंजे, भुंजद, भुंजिया,
वेरिसी वोही	२ वीय वीज "	सुंरंत, भुंजिय, अभोचा, मोत्तप
—	भुप (धातु) अवश्यमाण, उदा; भुज्जो भूय	
फरिस सर्थी		

मूर् (धातु)	भवद् (होइ), भव- मद् (धातु) गजेज्वा, पद्मेज्वा; पमत, मीसी मिथी	मुच्च (धातु) सुच्चद, सुपङ्ग, गुर्त;
दित, भवे, भवित्वाभि, भवित्वात्	अष्टमता	उच्चुच्च, सुय; पमुच्चसि, पमुच्चद,
गो; होइ (भवद्), होन्ति, होड़. मद्विद्या माईवता		परोद्यरुहि, दिष्टुक्तुक; पद्मोद्यए;
धर्मेभिः भूय, अग्नभिश्य, अग्नि- मन् (धातु) मग्नसि, मद्वा, मध्माण;		विमुक्तक, विमुत्त
भूय, पम्य, संमवन्त, अप्य०, सं-	गन्, दुम्यम्, भण्या; मत्ता, मन्ता,	मुहि (मुहि) सुहि
भूय, अभिप्तभूय	सम्मय	मुगि शुगि
भूमि —	मंत्रय् (धातु) निमन्तेज्जा	मुण्ड —
भूय भूत	मन्थु —	मुति मुक्ति
भेउर, भिं भिउर	मन्द —	मुत्तिष्ठ- मूत्रिन्
भेत्तर् भेत्	ममाइय ममायित	मुत्तिष्य मुक्तिक
भेय भेद	ममाय् (धातु) ममायमाण, अममा-	मुन् (धातु) सुय, सुग्निया, सम्मुय
भेय भैय	यमाण, अममायमीण	मुद् „ मुउत्तर, मृद, सम्मृद्
भो भोद्	ममाग (मामग) ममक	मुद् मुख
भोएण, भोजिन्	मरण —	मुहुत्त मुहृत्त
भोग —	मसग भशक	मुहुत्ताग मुहृत्तक
भोग भीम	मद्वन्द्व —	सूहण- मुनिन्
भोयण भोजन	महु मधु	सूय मूक (मूय, मूई)
धंग् (धातु) भट्ट	महुर मधुर	सूयत्त मूकत्त
धम —	मा —	मर्है (धातु) मुच्छद, मुच्छमाण-
मह मति	मारण- मादिन्	अमुच्छिय
मईमन्त् मतिमन्त्	मार्है (धाम०) „ (अग्म०)	मूल —
मउय मूढ़क	माण मान	सूसियारी मूदिकारी (मार्जीरी)
मंकड मंकेटक	माणण मानन (यथा वन्दन, मानन, पूजन)	मू (धातु) मुयव (मृताचीः; मृता
मंस मोस	माणय मानव	विला अची (तेजौ) कवायस्ता
मंसु इमधु	माणुस्स मानुष्य	येता ते मृताचीः—व्याएण) रीपमारप
मंकडग मंकेटक	मामग मामक (मर्दीय)	मृत् „ संरातिमामाण; पमज्जए पम-
मामग मार्ग	मायर् शात्	बिज्ञा, पमज्जिया, पमज्जिय
माचिय मल्ले	१ माया मात्रा	मृप् (धातु) आसुन्तत; विष्टरामसद०
मच्छु मृद्यु	२ माया माता	मृपद, मृदद, मृसद; मृसम्भी
मग्न मध्य	३ माया —	मेहाविन् मेहाविन्,
मजित्तम मध्यम	मार —	मेहागिय मेहनिक
मट्टिया चृतिगा	मारय मादत	मेहिण- मेहिन्
मडेय —	मास —	मोक्ष सोत
मण मनस्	मादण (यंभण, यम्भण) यादिणि	मोण भौन
मंगल मन्दू	मिजा मज्जा	मोत्तिय मौकितक
मंगल मन्दू	मित्त मित्र	मोयण मोचन
मंगी —	मित्तुं मिथुन्	मोद —
मणुस (०स्त) मनुर (०ष्य)	मित्त मित्रू	
मत्ता मात्रा		
मध् (धातु) पमत्तद, पमत्तै		

ला (धातु) मिलाइ	राय राव	पद्मिलेहिता, पद्मिलेहिय, मुपदिले-
य च	रायसिण्—राजसिन्	हिय
य ज (यथा अण्डय, डंबिय, रायण्-राजन्)	रायहाणी राजधानी	लिप् „ लिपद, ओलिपेजा,
जसाउय, पोवय, रसय, संसेयय रायहाणी	ज (धातु) रिजइ, रीयइ, रीयए, ली „ दृष्ट्य ल्ली !	उवलिनेजासि, ओलिप०, लिपेजा
इत्यादि)	रीयने; रीयन्द्, रीहत्या, रीयमाण लुक्षय रस	
यद् (धातु) जयाहि, जयमाण	रीयन् रिक, अहित, रि- लुच्छ् (धातु) लुच्छु, लंचिय, चंक-	
यम् „ जय (योत्), आय, रिच् (धातु) रिक, अहित, रि- लुच्छ् (धातु) लुच्छु, लंचिय, चंक-	यमाण	
आयतर, निवर्द्धनिति, संजमद, ककासि (लक्ष्यतवान् !)	रीया ईर्या	लुप् „ लुप्पइ, आलुप्पह, विलुप्पह
संजय, अंसजय०	रुक्षय रस	विलुप्पनिति
१ या च		लंपहत्तर् { लुम्पियते
२ या (धातु) जनित, दुर्जाय; रुद् (धातु) हयनित, रोयनित		लंपित्तर् } लुम्पियते
जायए, जावहस्य, निजजाई, नियाइ रुद् „ निश्च		लुस् (धातु) लुसिषु, (विद्यनि,
यान् „ जाएजा, जाइस्तामि, रुग् „ आइसियाण		जिद्दिप्) लुसिय
जाइसा	रुद् „ अभिज्ञस, आहज्ञस,	लूसग लूपक
युज् „ अभिजुंतिगाण, जुंजिया; समाइहनित	रुद् (इद वीजज्ञमनि)	लूसग लूरणक
विपुड़जनिति	रुपय, „ पहवेमो, पहवेइ, पहवेन्तेइ	लूसिण-लूखिन्
युस् „ लुप्पाहि	रुपय	लूदू (लुक्ष) रस
रह (अर०) रति (अर०)	रुविण (अर०) रुपिन् (अर०)	लेहु, लेलु लेयु
रहव रह	रोग —	लेस्सा लेपा
रहू (धातु) सारक्षमाण, नीण		लोद्य लौकिक
रह „ रजजै, रज्जा, रत, रुज्ज (धातु) लज्जामो, लज्जमाण		लोग लोक
आरत, विरुद्धए, विरुत	लहि यहि	लोच् (धातु) आलोएं, आलोएज
रहण अरण्य	लहिं लविय	लोम —
रह् (धातु) आरम्भ, आरंभमाण, लप् (धातु) लालप्पमाण,		लोव लोप
•नीण, अगारद; समार (रे) मइ लहू „ लम्ह, लभनित, लड, लेहिय सोहेत		
०रमनित, ०२ (रे) भेडजासि, ०३जा, अलद, •दग, लक्ष्मु, लभिय;		य इव, एव, वा
१ (रे) भन्त, १ (रे) भमाण, उदलवम, पूलवम, पडिलभिय		यहै वान्
असमारम, ०८८; समारभावेइ, लम्हू (धातु) अवलंबण, अवलंबि-		यओ वच्च
•वेजा	याण	घक्कस, १० विन्दनधान्मोदनम्,
रह „ रमइ, रमनित, रय, अरय लवण्य —		पुरातनसक्तुपिण्डम्, घुहिदवस्
उवरय, अगुरवय, विरमेजा, विरय, लहु लयु	लहुग लवुह	समुद्रगोरसगोधममण्डकम्—प्यात्यया
अविरय	लाघव —	घंक वक
रय रव्य	लाघविया लाघवता	घच् (धातु) युत, यत्तए, यार०,
रस —	लाढ राता	पथुव्वद्व
रसण रसन	लाला —	घशा प्रश, वाच्य
रार रावि	लिख् (धातु) पडिलेहिता, पडिलेहे, घज वज् (-भूमि)	
राइन्द्रिय रायिदिव		
राम —	पडिलेइ, मुग्गिलेहिय; पडिलेहाए, यट्ट रुता	


धृष्टमग्र वर्णमंक	१ धा (धातु) पवायन्त	वित्ति —
धृष्टमग्र वर्णमंक-मार्गी	२ धा (धातु) उद्देश्यन्ति, उद्देश्, वित्ति वृत्ति	१ विद् (धातु) विहत्ता, विहत्ताणि, वैएद, वैएज्जा, दैयण, पवैएन्ति,
धृष्टमच्छ वृद्धमत्त	उद्देश्यवृ	पवैयन्ति, पवैयेष, पवैएस्तामि,
धृष्टमग्र, ०३०, ० वर्णमंक	वाइण् वादित्	पवैयस्तामि, पवैश्य, पडिवैयमाण;
धृष्टस्तार् वनस्पति	धात् धातु	विष्पवैयैद, पवैसंवैयैद, ०० वैदैद,
धृष्टण् धृणी	धागरण् धागरण	०० वैदैद ०० वैय (य) न्ति
धृष्टय वृष्ट	धाम —	२ विद् (धातु) वित्तिज्ञ, वित्तिए,
धृष्टयम् वृष्टक	१ धाय वात	निविद्यज्ञद्वृ, निविद्यज्ञ, निविद्य,
धृष्टयु वृष्टु	२ धाय वाद	निविद्यग्न
धृष्ट (धातु) वृष्टन्ति, वृष्टी, वृष्टि वृष्टस —	३ धास —	विदिसा विदिश्
स्त्रामि, वृथन्त, वृथमाण, अनवृय. वृयाया (धातु)	१ धासग पर्वक,	विढाय (धातु) विहृयमाण,
माण; वृहत्ता, अगुवृयमाण, ०३०३; वृला (वर्णमी)	२ धासग वारक	(विढायो वृयमित्येवमारमानं मन्त्य-
परिवृयन्ति, ००वृज्जा, पवैयमाण, १ वृस वृं	१ वि अभि	मानः—व्याहृण)
०३०३	२ वि विद्	विद्वाण विद्वान्
वृष्ट " पृष्टन्ति, वैहन्ति; अभि- १ वृसग पर्वक,	विद्विग्निल्ला, ० गिन्ड्ला विदिकिसा	विद्वायद्-विद्वान्
विवृज्जा, निवृद्वृ	२ वृसग वारक	विन्तु वित्त
वृम् " वृन्ता	१ वि अभि	विए (धातु) परिवैयमाण, पवैवैन्ति
वृमण वृमन	विद्विमिस्त व्यतिमिप्र	विपरिस्तण्—(विद्विन्)
१ वृय वृष्ट	विड विद्	विपरिणाम विपरिणाम
२ वृय प्रत	विद्वायाय व्यवपाद, व्यापात, व्य-	विपरियास विपर्यास
१ वृयण वृत्त	तिपात	विपिय विप्रिय
२ वृयण वृचन	विद्यय विक्रय	विमोक्षण विमोक्षण
वृयस वृचू	विद्यृद विक्रद	विमोद विमोद
वृयद्वार व्यवद्वार	विद्यृद विक्रद	१ वियड विक्ट
वृस (धातु) वृसे, वृवृद, वृवित्ता, विग्रह विप्र	विद्यृ (धातु) विविच्छ, विविच-	२ वियड विक्ट
वृहियसेद, अहियासेऽ, अहिसे- भाण, विवित्त, विवित्ता	भाण, विवित्त, विवित्ता	वियन्त-कारण व्यन्तिकारक
वृहिय, अहियासमाण, अणहि- विवित्त विवित्त	विवित्त विवित्त	वियाधाय व्याधात
वृमेमाण, अहियासिय, अहिया- विजय —	विजय विजय	विरद विरति
सेऽए; अगुवृज्जाधि; आवये, विज्ञा (या) णग विजानक	विज्ञा (या) णग विजानक	विराग —
आवृस्त, परिवृस्तिय; संवृस्त	विज्ञृत विडन्	विहृव विहृ
वृस वृत्त	विज्ञा विद्या	विलुप्यिच्चार } विलुप्यित्त
वृसा —	विज्ञृप-विनिधि	विलुप्तिचर्
वृसु (वृषु वृव्यम्)	विण्यय विनय	विष्याय विद्वाद
वृसुमन्त् —	विण्या विना	विवेग विवेक
वृह् (धातु) वृग्नमाण; परिव- वितण्ड —	वितण्ड —	विद् (धातु) पविद्यर (
हित्ता	वितद वितर्द	निविद्, विलिविद्; पविष्टण, पवि
वृह् वृथ	वितद वितर्द	
१ धा व या (विद्वापर्वक)	वितद वितर्द	

हनोप, परिस्स, प्रवेश्या, अणुगविसिता १ घ वैर	धैर्य वैपक	संवच्छर खंबलर
विसंदृष्ट विप्रमण	ध्यथ् (धातु) प्रवहिय	संसप्तग संवर्क
विसय विद्य	ध्यध् " संविद्, विद्य	संसय वैशय
विसाम विशाम	धज् " परिव्यन्ति, परिवेषु	संसार १
विसोग विशोग	परिव्यजासि, प्रवैश्य	संसोहण धंशोग्न
विसोत्सिया विसोत्सिया	द्वी " अहर्ण, अर्ण	संदारण १
विसंनगया विश्रमगता	शैम् (धातु) प्रसंसिय	संविक्ष संवित
विसेणी विश्रणी	शक् " सञ्चामो, सञ्चके, सञ्चका	संकल्प संकल
विद्व विव	शत् " आसाएजा, (संहृत-आ- शात्येत्) अणासावमाण, ०मीण	संकमण संकमण
विद्वार १	१ शम् " सन्त, समिय, समेमाण	संग १
विद्विव विधि	२ शम् " सुनिचन्त (सं० मुनि- थान्त) निसम्म, नियामिया, संघाडी	संगंय संगन्य
विद्वारिण्- विद्वारिण्	नियामेता	संगाम धंगाम
विहिसा १	शिद् " सिक्केज्जा, सुसिक्केज्जा.	संघाय धंघाय
विहिसग विहेसक	मुखिक्षे	सद्ग सद्ग
धीरभिस्स ध्यतिभित्र	शिश् " विष्पसिह, परिषिह, मु-	सद्ग (धातु) सउजेज्जा, सत्
धीर १	विसेठ	संजोग संयोग
धीराय (धातु) धीरायमाण (अ- धीर धीरा-मविता)	शी " उद्	सहिण् धद्विन्
धीरिय धीरे	शुच् " सोयद, सोएज्जा, सोयए,	सड़ शड
धीहि धीपि	अणुसोयन्ति	सत्त्व सत्त्व
धुक्कम धुक्कम	शुध् " मुद्द, शुवितुद	सत्ता १
धुड़ि धृदि	शद्-धा " उद्दे	सत्ति शफि
धु (धातु) पाउण्डसामि, पाउड;	थ्री " खिय, अणुसिय, अणुसित्वा,	१ सत्य शब्र
नियुह, अभिवियुह,	अणुसिध्ति, समुसेषणामि, ०णोमि,	२ सत्य शाख
परिनियुह, संयुह	समुसियणासि, ०णोसि, ०णाइ;	सत्यर्- शास्त्र
धृज् " वज्राचा, वज्रन्त, वज,	विसिष्य	सद् (धातु) सत्र, अवसीयमाण,
परिवैष्ट, परिविजयांग,	धु " मुण्ड, मुगेद, मुगेद, मुण-	आवज्ज; निधिएज्जा, समावज्ज,
वृत् अवदत् १)१००, वर्ते (३)उज,	माण, मुय, दुसुय, मुगिया, सोचा;	नियण्ण, विष्पसायाए, विधीयमाण,
तउद्द, तिउद् तुइः आउद	संस्तूप, मुस्तूपमाण	विसण्ण
वट् नियट्टैन, नियहमाण, अभिविष्ट-	ध्यक् " अवसप्तेज्जा	सद् शब्र
सेज्जा, विनियहमाण, अणुगवियुद्,	१ स, से, सो सः (तत् सर्वनाम,	सद्गा थदा
०यहमाण, अयहतूण, विउद्दाण, वियहत्ता;	पुंशिह-प्रयमेकवचन)	सोम्य विपीम्
संवेष्टज्जा, संवद्दाणा, यंवेष्टा	२ स सद्धर्थक	सत् (धातु) अपउजवसिय, पउजव-
धृध् " वहुद, वहुद, अभिरंयुहृ	३ स सद्	तिय, उपउजवसाण
धेय वेद	संदै वहूद्	संताणग संतानक
धेयण वेदन		संति शान्ति
धेयवंत्- वेदवन्-		
धेयापडिय वैयाश्य		

संतोगर्हय उन्नेश-	सम्मुख्या उम्मुक्तिवा	सामग्रीय रामन्ध्य
संपर उंस्टर	सम्मुच्छिम उन्नूर्चिन	सामत्त इमामद्व
संघव उंस्टव	१ सय शय	सामिष्ट- इमान्दू
संपारा उंस्टराक	१ सय स्वक	साय शाय
संयुग उंस्टु	१ सयण शयन	१ सार —
संपण उंव्वल	१ सयण स्वन	२ सार सार
संषि —	सर्य उम्म	सारण स्वारु
सदा सज्जा	सययं उदत्तम्	साला शाला
संनिध्य —	सया उदा	सासय शास्त्र
संनियेस उन्नियेदा	सर स्मर	साहमिय यापर्मिद
संनिदाण उन्नियान	१ सरण शरण	साहारण शाखारण
संनिहि उन्निपि	२ सरण इमरण	साहु याधु
संपिण्- उन्निन्	१ सरणया शरणता	सिंग शृङ्
संबलत उवलत	२ सरणया शरणता	सिंच (घातु) संविचमाण, संि ष्ट, संविचियार्ण
समा —	सररी शरीर	सिडिल शिपिल
सम —	सररण शरीर	सिणाण जान
समज्जय —	सह शह	सिदि —
समण अमण	सयण अवण	सिद्ध (घातु) निकिदा, परिशेहिय
समषुद्ध उम्मुक्त	सत्य उदे	सिर गिरस्
समय —	सध्ययो उर्जत्तू	सिलियरण- शीगिन् (शीपद पादार्थी शटिग्यम्-स्याइगा)
समया उम्मता	सत्यत्त उर्वत्त	सिलोग शोड
समायाण उमायान	सत्यत्प उर्वप	सितिर गिरिर
समायार उमायार	सत्यया उर्वदा	सिस्स शिष्य
समारंभ —	सत्यसो उर्वश्य	शीय शीन
समादि उमापि	सत्यायन्त्-उर्वायन्	शील शील
समिय- या उम्मह	सत्यत्य उद्य शाय	शीलमंत शीलवन्त
समुद्धाइण्- उमुद्याविन्	सद (घातु) उद्द, उद्द	शीश (घातु) चिपिस्त्वामि, शीवि-
समुप्पाय उमुत्ताद	१ सद —	शीस शीवं
सम्मुस्तवय उमुद्दाय	२ सद स्वक (सद उम्मह- या-उवक्तउम्मया)	शु —
संपत्ताराम उंव्वारु	सद्दसाकारय् (घातु) उद्य	शुकर —
संपाइम उंव्वातिम	कोद्द	शुकरण —
संफास उंव्वरी	सदि उर्वि	शुक्र
संयाह उम्माव	साइण-शायिन्	शुक्रिल शुक्र
संयाहण उम्मापन	साइम स्वारिम	शुक्रिल शुक्र
सम्माइ उम्मति	सामारिय यागारिक	शुदु उदु
सम्मरया उम्मतिता	साड शाट	शुणग उनक
सम्मै उम्मह	सादृ (घातु) उद्देव, शादृ,	सुणिम् ...
सम्मत उम्मत्त	यादिस्तामो, चाहिय	
सम्मुर उम्मुति		

मुण्डा सुपा	सोधाग इपाह	१ हास इपे
मुत एव	सोहि थोपि	२ हास्स, हु० छद्व
मुम शून्य	स्वल्प (धातु) खलयिद्ध	हा (धातु) जहाद, जहेति, जहादि,
मु० (पातु) हुत	स्तन् „ थण्ठि	ही०, जैहिता, विज०, दिव्या; परिहा-
मुभ उप्र	स्तम् „ ओहुभियाए, ओहुभिया	यमाण, अप०, अपरिहीण, पदाय,
मुभि भुभि	स्तु „ संपरए, संथेउजा, संप-	विष्वजठ, विजहिता, विथहितु
१ मुय थुन	रिता	हार —
२ मुय हुत	स्था , चिह्न, चिट्ठे, चिह्नजा, हालिद हारिद	
मुभि — गन्ध	ठाएउजा, चिह्न०, अचिह्नत, ठिय, १ हास इपे	
मुवसु —	ठाएय, उहिय, अछुहिय, उहाए, उहाय; ३ हास — हास्य	
मुव्यय मुवत	समुहिय, समुहाय, उबहिय, अगुव०; हि —	
मुसाण इमशान	परिहुवेउजा, परिहुवेता, विपरिचिह्न०; दिस (धातु) हिपद, हिसनित,	
मुद बुत	विहिय, परिविहिय	हिखिसनित, हिखिमु, अहिसमाण;
मुहुम सूक्ष्म	स्प०, „ विष्वन्दमाण	विहिपद, विहिसनित, अविहिसमाण
मूर श्वनि	स्प०, „ कुधन्ति, फासए, पुढकन्त०, हिसा —	
मूरय मूय; अवरा मूपिक	उठ	हिमग हिमक
मूणिय रुनेक	स्प०, „ पीहए	हिमयाय हिमपात
मूर एर	स्फुद विफुहमाण	हिय ह०
मूर (धातु) पाहाए, पसोरेमाणे,	स्प० „ घ (म) रनित, अणुसं-	हियय ह०
पसायि, पसोरेतु, संपसाए;	घार०	हिरण्ण हिरण्ण
अगुसंपरद	घ „ शीसवन्त	हिरिण- (शीसवन्त)
मूस „ थोसिरे, थोउड, निओसउज,	स्थार० „ साइज्जा, साइज्जसामि,	
•सिउज, •सेज, थोधउज, थाणिसह०	साय, असाय, अस्थाय	
मैज्जा शाया	हंता हन्त	हु खल
मैय खेप०	हंभो —	हु ...
मैद० (पातु) मैवद, • ए, मैवनित,	हण० हण	हुररथा हुरस्ताव
मैवउजा, मैविया, मैविसु, मैविता,	हणुय हनुक	हुस्स हस्त
आमैवद, • ए, आमैविता, पाड०	हत्य हत्त	हु (धातु) अभिह०, अबहानित,
मैवे, पउसेमाण	हन० (धातु) हणति, इणिया, हणे,	आहो, आहाड, आहाद्द०,
मैस शेप	हण, हणह, हणत—, हंतव्य, हय,	आहारेमाण, उदाहानित, उदाह०,
मैदि (खिदि)	(हओवहय); हम्मह, हम्मइ; आहंतु	परिहानित, परिहोउजा, परिहरन्त,
मैणिण (वी) य थोणित	चवहय, निहणिउज, निहणिसु, अविह-	विहो, विहरित्या, विहरितु, विह-
मैस॒ थोत्र	ममाण,	रन्त, विहरमाण, विहोउजा
१ सोय थोच	हंतर० * हन्त०	हुप (धातु) हरिसे
२ सोय थोव	हरय ह०	हेत० हेतु
३ सोय थोत्त०	हरिय हरित	हेमन्त हैमन्त
सोयधिया शीखदता	१ हृव्य अर्वाह०	होठ हु० ओउ
सोलस थोहा	२ हृव्य० हृथ्य	हुम० (धातु) निहृवद, निहृवेउजा
		ही „ अहिरिमाण

कतिपया विशिष्टाः पाठ-भेदाः ।



१. पं. १. आउसंतोर्णः आमुसंतोर्णः आवसंतोर्णः
,, १०. अगुसंचारह् स्थाने अगुसंचारह्.
,, १६. प्रयोद्देह स्थाने अन्यतात्.
,, १७. मोयगाएः स्थाने भोयगाएः.
२. पं. २४. नियाग स्थाने नियागः निकायः.
,, २६. वियोहु विसीतिंय स्थाने विजिहिता पृ. ८. पं. १४. कीरे परंसिए इथाने खीरे तथा नर्मदिओ.
३. पं. ३. साध्यं चेत्य स्थाने पाध्यं चेत्येऽपि.
,, ७. पाटमाये स्वाहे स्थाने पासमायो
पासिमाहं; मुण्माणे उदाहं स्थाने मुण्मा-
माणो मुणिमाणं.
४. पं. ८३. एतस्य स्थाने एयस्तु; एगस्य.
,, २७. इह स्थाने हति.
५. „ २०. वित्ते स्थाने विटे
,, २१. सध्ये स्थाने द्वते
,, २२. माणवाणे स्थाने अवमंजयाणं.
,, २३. परिमाणेहि स्थाने पक्षानेहि.
६. पं. १०. जावदोहारिलागेहि अपरिदायवागेहि
स्थाने जाव चोतप्राणा अपरिहिणा.
,, १५. एचित् वि एते नास्ति.
,, २४. विणहु स्थाने विळा वि.
,, २६. एचित् गाइके द्वापे उवगाके
अधिकपाडः
,, २७. दृष्ट-समायाणे स्थाने दृष्टं समारम्भः
भयादृष्ट-समायाणे सोहोएः हति धा.
,, ३२. ऐ अर्द्दे इत्यादि पाठस्थाने
‘एगेसे खल जीवे अर्द्यदाए अर्द्द-
उदागोए असदं नीया—गोए कणगड-
साए नो हीणे नो अहरिते’ एताहद्यो
नागार्जुनीयः पाठः ।
७. पं. २. एचित् धार्यं नास्ति । तथेयं ‘पुरि-
चेण षष्ठु तुष्टुषेणगृहेषणं मुखि
- हाव जीवाभिगमे कायथे जाव इरिष-
यागिचित्तं सामातायं वियाणिता
रियोदर्ह द्वाव्या’ यताद्यशो
नागार्जुनीयो यि पाठभेदः ।
,, १४. विद्युत्या स्थाने वियाया.
८. पं. १४. कीरे परंसिए इथाने खीरे तथा
नर्मदिओ.
,, १६. परिवेहितो स्थाने पदिलाभिओ.
,, १८. एवेहि सत्येहि इत्यादि पाठस्थाने
संयेहि विश्व-हवाये अहाए, तं-जहा
पूः पाठः ।
,, २३. धर्यं धनीति० स्थाने धर्यं धनिं
धदक्षु.
९. पं. ६. असदा धं पाचए स्थाने असदेण
पाचए.
,, ८५. ये ते जाह, जनहं येमि स्थाने ये
एवमायागह अ बेमि.
१०. पं. २. दिह-भद्र स्थाने दिह-भद्रे.
,, १४. तम्हा खीरे न इत्यै स्थाने तम्हादेव
विभजणे.
,, २१. एचित् एस खीरे परंसिए नास्ति.
एचित् तुरसु खीरे १०.
११. पं. २. ...आवृद्ध अणु० स्थाने दुखावद्येव
अणु०.
,, ७. आयवे नाशवे स्थाने आयवी नाशवी.
,, ११. मारीभिसंकी स्थाने माराप्रसंकी,
,, २५. कम्म-मूलं व जे स्थाने कम्ममाहृय जे.
,, २९. महसं स्थाने मेहावी.
१२. पं. १३. अर्गं च इत्यादि स्थाने एचित् मूँ
य अर्गं च विएतु खीरे, हति तथैय
मूँय च अर्गं च विएतु खीरे, कम्मात्वं

ये इ विमोक्षणं च, इति नागार्जुनीयः पाठमेदः ।

,, २६. नाणुजागण अथेऽच्छन्ति उग्रन्तं नाणुमोऽय अधिकः पाठः ।

,, ३०. निसुणो पावेहि कम्भेहि स्थाने तेषु कम्भेमु पवं ।

पृ. १३. पं. १. गामी स्थाने गामं ।

,, १३. धीरे स्थाने धीरे, तथा

विश्व पवेगमिमैव

दुविहमिम तिष्य-तिष्य

भावओ मुद्दु आणिता

से न लिप्यद दोषु वि ।

(१ विसयमिम पश्चगमिम इत्यपि प्रख्यन्तरे)

इत्येवरूपो नागार्जुनीयः पाठमेदः ।

,, १९. अवरेण पुर्वं न सरन्ति एगे इत्यादि

पंक्तिस्थाने

अवरेण पुर्वं किंह से अर्द्धये

किंह भागमेस्थं न सरन्ति एगे;

भावन्ति एगे इह भाषणा उ (थो)

जह से अर्द्धये तद भागमेस्थं ।

पर्यन्तपाः पंक्तयः ।

, २३. अद्यं स्थाने अर्थं; अद्यं चा पाठः ।

पृ. १४. पं. २. दुक्ष्य-मत्ताएः स्थाने दुक्ष्यव्याप्ताएः

धम्मामायाय, इति चा पाठः ।

,, ६. दूर्घिपुस्तके उवरय जाय उगडाविनि

पाठो नोपलभ्यते ।

,, १९. एवचिन् मारं स्थाने मरणं; क्वचिच्य

मारं च मरणं च उभयमपि ।

पृ. १५. पं. १. नो लोग० एतद्वाप्यस्थाने नो य

लोगेदानं चेते,

,, ४. ज्यवाने धीरे स्थाने जयाहि एवं.

,, ८. आशाइ स्थाने अक्षवाइ. तश्चैवये
नागार्जुनीयः पाठमेदः—आपाइ
घम्मे छलु से जीवाणं, तं-जहाः; चंसार-
पदिवक्षाणं गणुस-मवत्याणं आपम-
विगर्हैर्ण दुर्गुणेन-मुहेषगाणं धम्म-
सदग-गवेदगाणं निक्षित-सत्याणं मु-
सुमाणाणं पवित्रुमाणाणं विमाण-
दत्ताणे.

,, १५. मुहो मुहो इत्यादि पंक्तिस्थाने पता-
दर्शं पाठान्तरम्—एत्य मोहे मुगो
मुगो, इहेमेहिं तत्य-तत्य संघो भवद,
अहोवापाए फोरे पटिसेवेयभन्ति;
वित्तं कूरेहि कम्भेहि वित्तं परिविचिह्नं;
अचित्तं कूरेहि कम्भेहि तो वित्तं
परिवि चिह्नं.

,, २४. ते एवं व्याप्ति स्थाने एवमाइक्षवन्ति.

,, २५. दूर्घिपुस्तके अणायवियक्षणमेवं
नास्ति.

,, ३०. पावाड्या स्थाने दूर्घिपुस्तके समाप्ता
माहणा.

पृ. १७. पं. १. तमंसि स्थाने तं अहस्त.

,, ९. कम्मुणा राक्षलं स्थाने कम्माण सफलतां.

,, १५. आवन्ती इत्यादिव्याक्षयस्थाने नागा-
र्जुनीयमेतादर्शं पाठान्तरम्—
जावन्ति केद लोए छक्काय-वृहं समार-
भन्ति अहावृह अणहावृह वा

,, २१. मरणाइ एव स्थाने मरणादुवेह.

,, २५. कट्ट एवमव्याप्ताओ इत्यादि पंक्ति-
स्थाने नागार्जुनीयपाठमेदो यथा-
जे रात्रु विष्ट एवेवद, चेतिता वा नालो-
ए परेण मुहो निष्टव्यद, अहका तं परे
साएण वा दोषेण पावित्रुवरण वा
क्षेत्रेण उविलिपेज्ञा ।

,, २९. फारे स्थाने मोहे; क्वचित् मुगो अग्रे
संसये परिजागाओ यिशोपः ।

पृ. १८. पं. १. पश्चमाणे स्थाने तत्प्रमाणे,
,, १६. छन्दं हह माणवा स्थाने छवदाणं इह
माणवाणं.

,, २६. से मुप्पदि० पतरपंक्तिस्थाने से मुप्पं
अणुविचिन्तय नवा.

,, ३१. अप्पमाणे परिव्वए स्थाने दूर्घिपुस्तके
अप्पमाणे सुसिंक्षेपज्ञा.

,, ३२. अणुवालेजाधि० स्थाने अणुवालेजाधि०

पृ. १९. पं. ८. सिया स्थाने चेत्-अप्पेहिए० स्थाने
अणुस्तिति० अणुसिता०

,, ३३. हुद्या० पतरपंक्तिस्थाने हुदारिय० च
[कुवं],

- “ १६. मए स्थाने पदे.
१. पं. २६. एष विमेऽज्ञ वेयवी स्थाने विवेग
किदृश वेयवी.
“ २७. विग्रहु स्थाने विग्रहा.
“ २९. वडमांग स्थाने वडमांग.
२. पं. १४. अणग-इवेहि कुलेहि जाया स्थाने
अणेगओ तेतु कुलेसु.
“ १५. इवेहि उच्चा स्थाने इनेषु गिदा.
३. पं. २. पञ्चवद स्थाने पञ्चवद.
“ ७. धूश्वायं प० पततपंक्तिस्थाने धुव;
पुग इति धा पाठः । तथैव धूश्वा-
यायं पवेयस्त्वामि इति नागार्जुनीय-
मणि पाठान्तरम् ।
“ १७. वद्दापुष्व धूजोगं स्थाने चूर्णिपुस्तके
जहिता पुष्वमाययां.
“ २६. अहो धम्ममायाए स्थाने यहिए धम्म-
मायाय.
“ २८. गोहि स्थाने गत्यं; गिर्दि.
२४. पं. १४. वीरे स्थाने धीरे.
“ १५. एवं युधी स्थाने एव मुगी.
“ २१. लाघवमा० इत्यादिपंक्तिस्थाने पता-
दशो नागार्जुनीयः पाठमेदः—
एवं खल से उवरण्म-लाघवियं तवं
कम्म-खव्यकारणं करेद ।
“ २२. सव्यवो सव्यताए स्थाने नागार्जुनीय पू. २७. पं. १३. नो युप० इत्यादि शब्दस्थाने चूर्णि
पुस्तके न एव धम्मे मुक्तवाए सुप-
तते भवद्य एते शब्दाः ।
“ २८. धूधेमणे स्थाने धूधेमणः; समुद्दिप
स्थाने समुद्दिप०
“ ३०. अणवक्तसमाणा स्थाने अणवक्तसमाणा
(ने); अवसमाणा; इति वा.
४. २५. पं. १. तेहि महाविरेहि स्थाने चूर्णिपुस्तके
तेहि महाविराणं.
“ २. उवलम्ब स्थाने पलम्ब; हिता उव०
इत्यादिवाभ्यस्थाने हिता उवसमे
अहो कारुषिये समाभन्ति ।
“ १५. जाहि स्थाने गवमाइ.
“ २६. अविहिवे इत्यादिशब्दस्थाने अवि-
हिवा, मुख्या. इन्ता अहेग, पत्त.
इत्येवंरूपाःशब्दाः, तथा-पता-
दशो नागार्जुनीयः पाठमेदः—

- “ समाणा भविस्यामो अणगारा अहि-
वणा अपुत्ता अप्सू अविहिवा मुख्य
दन्ता परदत्त-मोशो; पावं कम्म नो
करिस्यामो ” समुद्दाए ।
“ ३१. सथा परदमेऽजासि स्थाने चूर्णि-
पुस्तके सव्यवो परिव्याप्तिस्थाने
पू. २६. पं. ६. आश्ववे वि० पततपंक्तिस्थाने
नागार्जुनीयमेतत्याटान्तरम्—जै
खल निम्ब बहु-सुए बद्धामगे आह-
रण-हें कुपले धम्म कहा-लद्धि-सम्मन्ते
खेतं काले पुरिसं समादज्जने के अयं
पुरिसे कं वा दरिसां अभिवन्ते ? ”
एं उणजार्हेए पम्म धम्मस्व आघकेतए ।
“ २०. तम्हा लहावो नो परिवित्तेऽत्रा
स्थाने चूर्णिपुस्तके जसिमे लुधियो
नो परिवित्तसिन्त इति पाठान्तरम् ।
“ २४. विजेवाए स्थाने वियाघाए, वियावाए,
विकायाए, विवायाए; इति पाठा-
न्तराणि ।
“ २७. कालोक्तीए० इत्यादि वाभ्यस्थाने
नागार्जुनीयाः पठति—
जाह खल अह अपुणे आउ-तेउ-काले
करिस्यामि, तो परिणामोवे अकिनी
दुग्गाह-गमणागमणं व भविस्यद ।
“ २०. उदाहिया स्थाने उदाहारा.
“ २३. पदिकं स्थाने परिकं, पादियं;
पदिहें, पदियं, पाठान्तराणि;
तथैव जीवेहि कम्मसमार-
झेती स्थाने दण्ड समारमन्ते पाठा-
न्तरम् ।
पू. २८. पं. ३. वेषमि स्थाने चूर्णिपुस्तके (क्षे-
मणन्ति) करेमि (तं दु न जुज्ज्रह).
“ २३. सोच्चावई मेदाह० इत्यादिशब्दस्थाने
सोच्चावई मेदाही वयणं प० ।
“ २९. संनिदाण-सद्यस्व स्थाने चूर्णिपुस्त-
के सीनिहाणस्व खेयंत (अप्रवायणाप)
सीनिहाणस्वत्यस्व ये० ।

- ,, २९. „ १०. ओम-चेलिए स्थाने अवम-चेलण; चूर्णिपुस्तके अदुवा अचेले पाठो नोपलभ्यते.
- ,, १७. निष्ठेषं स्थाने निष्ठेविष्टैः निष्ठेषं; पृ. ३३. „ ६. अभिशज्ज स्थाने आहंस, विहरिषु स्थाने विहरिसु.
- ,, २२. एवं स्थाने य, अन्त्रै टीकाकारारसं-
गृहीतमेतादर्शं पाठान्तरम्:-०गम-
णाए] ते भिन्नत्वे केइ गाहावृद्द इवषंक-
मितु वृदा: “ आउसन्तो समाण ! अहं
एं तत्र अद्वाए अस्त्रं वा धे अभिहं
दलामि । ” से पुष्पामेव जागेज्ञाः
“ आउसन्तो गाहावृद्द ! जं एं तुमं
मम अद्वाए अस्त्रं वा धे वेणुसि, नो
खलु मे कल्पद एय-प्पगारं अस्त्रं वा धे
मोत्ताए वा पायए वा अन्ने वा तद्य-
गरण । ”
- पृ. ३०. „ ७. एगागिणं स्थाने एगागिणं.
,, ११. संचरेत्तजा स्थाने साहोज्जा चू०;
आसापमाणे स्थाने लादायमी (मा)
गे पाठान्तरं चू०. दी. पुस्तके.
२०. पदिलेहिय-इत्यादि शास्त्रस्थाने पाठ-
केत्तिसा संपाराणं संपरेज्जा एता-
द्वाः शास्त्रमेदः ।
२७. एं एवं स्थाने एं भिन्नहस्त एवं । चा
एमि स्थाने संचा०.
- , „ ३१. „ २. ददृशस्यामि स्थाने दाहामि; दायामि,
या पाठः ।
- ,, ११. वसुमन्तो स्थाने वुस्मन्तो.
पृ. ३१. „ १२. विश्वाणं स्थाने विश्वित्ता
,, १३. •०ब्जीए स्थाने •०ब्जिव्यं; कम्मुणाभो
स्थानेन भारंमो ।
- ,, १५. अनित्यं स्थाने कारण-
,, २३. तु विनाय स्थाने वियागित्ता.
,, २४. तुव्वेत्तजा स्थाने तु वज्जेत्तजा; निवृत्ते-
ज्जाः; चा पाठः ।
- , „ ३१. पश्चात्य तरं स्थाने •०हीय तरणं; •०हीय-
तराणं; चा पाठः ।
- पृ. ३२. „ ११. पादुरेषु स्थाने पादुरेषु.
,, १४. चायतरं स्थाने चायतरे.
,, २०. य संचाय स्थाने इति संचाया.
,, २२. भेदेषु स्थाने भित्तेषु; तथैव वहु-
केतु वि इत्यपि पाठान्तरं.
- , „ २३. धुवं वर्णं स्थाने धुवं अमं. तथैव
सुहुमं वर्णं इति पाठान्तरं
- , „ २६. धव्वहे० स्थाने धव्वत्ये०
- , „ ३४. वि नाभिभासिमु स्थाने पुष्टे व से
अपुष्टे वा. इति चूर्णिसम्मतपाठः ।
तथैव
पुष्टे व दो अपुष्टे वा ।
नो अनुप्राप्त पार्वं भगवं ।
इति नागार्जुनीयः पाठमेदः ।
- , „ १९. नाद-सुए स्थाने नाद-पुते
पृ. ३४. „ ७. अहाकडं स्थाने आहाकमं
,, १६. खन्धसि स्थाने कट्टसि.
,, १८. वहुसो अपदित्तेणं स्थाने अपदित्तेण
वीरण.
- पृ. ३३. „ २१. पायिसालामु स्थाने सालापराण
,, २७. निर्दे० वि नो पगामाए देवह य भगवं
उद्वाए० एतद्वाक्यस्थाने निर्दिवि
न पगामा आधी तद्वृत्त उद्वाए० एताद०
शो नागार्जुनीयः पाठः ।
- , „ २९. भादिषु भगव उद्वाए स्थाने न चिरं
जौगित्ता इसि शायासि इति चूर्णि-
पुस्तके पाठः ।
- , „ ३१. तसुवृत्तगा स्थाने तत्त्वुत्तरगा.
- पृ. ३५. „ ४. समिए कासाई विहववाई स्थाने
साहिए इति मन्ता भगवं भगवारे इति
चूर्णितपाठः ।
- , „ ९. भयमुत्तमे धे धम्मे स्थाने “ को एत्य
सामी दिभो ” एयः पाठः चूर्णिपु० ।
- , „ १३. पिहिया वा सक्खामो स्थाने पिहिया व
चाएस्पामो चूर्णि०
- पृ. ३६. „ ४. अदुफलेण स्थाने अह कुन्ते (न्ताए) ण.
,, ६. ओहुभियाए स्थाने उहुविया.
,, १७. न से वप्पे स्थाने न सेवित्या.
,, २४. अपिविया स्थाने विहरित्या.
,, ३०. पायामेषे कट्ट स्थाने चायमातं कट्ट.
,, ३१. शुविसुद्धे स्थाने शुविसिद्धे० • गयाए
सेवित्या स्थाने • गया गनेतित्या
चूर्णि०
- , „ ३३. संयं स्थाने संन्ये०
- पृ. ३७. „ ८. द्वायद चमाहिमपत्तिसे स्थाने क्षायदै
समित्ये पेहमाणो चूर्णि०

